

Lexique Hindi / Français

Hindi	Translitération	Traduction	type
अँधेरा	ãdherā	sombre, obscur	adj.
अँधेरा	ãdherā	obscurité, ténèbre	n.m.
अंग	aṅga	membre, partie du corps	n.m.
अंगूर	aṅgūr	raisin	n.m.
अंजीर	añjīr	figue, figuier	n.m.
अंत	anta	fin, bout, extrémité, limite	n.m.
अंतमि	antim	dernier, final, ultime	adj.
अंदर	andar	à l'intérieur, dedans	adv.
अंदर आना	andar ānā	entrer, pénétrer	vb. int.
अंधा	andhā	aveugle, borné, irrationnel	adj.
अंधा	andhā	aveugle	n.m.
अंधाधुंध	andhādhūdha	à l'aveuglette, de façon irréfléchie	adj.
अंधाधुंध	andhādhūdha	à l'aveuglette, de façon irréfléchie	adv.
अंधापन	andhāpan	cécité	n.m.
अकल	aqal	intelligence	n.f.
अकलमंद	aqalmand	intelligent	adj.
अकल्पनीय	akalpnīya	inimaginable	adj.
अकसर	aksar	souvent, généralement	adv.
अकाल	akāl	prématuré, inopportun, hors de saison	adj.
अकेला	akelā	seul, isolé	adj.
अकेलापन	akelāpan	solitude, isolement	n.m.
अखबार	akhbār	journal	n.m.
अखरोट	akhroṭ	noix, noyer	n.m.
अगला	aglā	suiwant, futur, prochain	adj.

अग्नि	agni	feu	n.f.
अचानक	acānak	soudainement, à l'improviste	adv. tps
अच्छा	acchā	bon, bien	adj.
अच्छा लगना (किसी को)	acchā lagnā	aimer bien	vb. tr.
अट्ठाईस	aṭṭhāīs	vingt huit	nombre 028
अट्ठानवे	aṭṭhānave	quatre-vingt dix-huit	nombre 098
अट्ठावन	aṭṭhāvan	cinquante huit	nombre 058
अठहत्तर	aṭṭhahattar	soixante dixhuit	nombre 078
अठारह	aṭṭhārah	dix-huit	nombre 018
अठासी	aṭṭhāsī	quatre-vingt huit	nombre 088
अड़तालीस	aṛṭālīs	quarante huit	nombre 048
अड़तीस	aṛṭīs	trente huit	nombre 038
अड़सठ	aṛsaṭh	soixante huit	nombre 068
अतल	atal	sans fond, insondable	adj.
अदरक	adrak	gingembre frais	n.f.
अधिक	adhik	davantage, en plus	adv.
अधिकार	adhikār	droit, autorité, maîtrise	n.m.
अध्यापक	adhyāpak	enseignant, professeur	n.m.
अध्यापिका	adhyāpikā	enseignante, professeure	n.f.
अनकहा	ankahā	non-dit, implicite, sous-entendu	adj.
अनपढ़	anpaṛh	illettré	adj.
अनसुना	ansunā	non entendu, nouveau, inouï	adj.
अनाज	anāj	grain, céréale	n.m.
अनार	anār	grenade	n.m.
अनुकरण	anukaraṇ	imitation, émulation, mimique	n.m.
अनुकाल	anukāl	opportun	adj.
अनुकूल	anukūl	favorable, en accord, bien adapté	adj.

अनुक्रम	anukram	séquence, succession, suite	n.m.
अनुगूँज	anugūñja	écho	n.f.
अनुमती	anumati	permission, accord, approbation	n.f.
अनुवाद	anuvād	traduction	n.m.
अनुवादक	anuvādak	traducteur	n.m.
अनुवादति	anuvādit	traduit	adj.
अनुवाद्य	anuvādya	traduisible	adj.
अनोखा	anokhā	spécial, étrange, merveilleux	adj.
अपने आप	apne-āp	de soi-même, tout seul	adv.
अब	ab	maintenant	adv. tps.
अब जाकर	ab jākar	enfin	loc. adv
अब तक	ab tak	jusqu'à maintenant	loc. adv
अब से	ab se	à partir de maintenant	loc. adv
अभी	abhī	tout de suite, immédiatement	adv.tps
अभ्यास	abhyās	exercice, pratique	n.m.
अमरूद	amarūd	goyave	n.m.
अमीर	amīr	riche, fortuné	adj.
अमीर	amīr	riche (ou titre honorifique)	n.m.
अमूल्य	amūlya	sans prix, inestimable, précieux, gratuit	adj.
अर्थ	artha	signification, sens, richesse, biens	n.m.
अर्थव्यवस्था	arthavyavasthā	économie (système économique)	n.f.
अर्थशास्त्र	arthaśāstra	sciences économiques, traité d'économie	n.m.
अलग	alag	séparé, isolé, distinct, mis à part	adj.
अलग करना	alag karnā	séparer, isoler	vb. tr.
अलग होना	alag honā	être séparé, isolé	vb. int.
अवगुण	avguṇ	défaut, vice, faute	n.m.
अवसर	avasar	occasion, opportunité	n.m.

अवसरवाद	avasarvād	opportunisme	n.m.
अवविाहति	avivāhit	non marié, célibataire	adj.
असंतुष्ट	asantuṣṭa	insatisfait, mécontent, chagriné	adj.
असंभव	asambhava	impossible, improbable	adj.
अस्थिर	asthir	instable, remuant, déséquilibré	adj.
अस्वीकार	asvīkār	rejet, refus, non acceptation	n.m.
अस्सी	assī	quatre-vingt	nombre 080
आँख	ākh	œil, vue, vision, regard	n.f.
आँगन	āgan	cour intérieure (de la maison)	n.m.
आंदोलन	āndolan	agitation, lutte, mouvement (contre)	n.m.
आईना	āīnā	miroir, glace	n.m.
आकार	ākār	forme, taille, dimension	n.m.
आकाश	ākāś	ciel, espace	n.m.
आख़रि	ākhir	finalement, enfin	adv. tps
आख़रि	ākhir	fin	n.m.
आख़रिी	ākhirī	dernier, final, extrême	adj.
आगे	āge	devant, en avant, plus tard	adv.
आज	āj	aujourd'hui	adv. tps.
आजकल	ājkal	actuellement, en ce moment	adv. tps.
आज़माना	āzmānā	tester, examiner, essayer	vb. tr.
आज़ाद	āzād	libre, indépendant, autonome	adj.
आज़ादी	āzādī	liberté, indépendance	n.f.
आठ	āṭh	huit	nombre 008
आठवाँ	08 āṭhvā	huitième	nombre ord.
आड़ू	ārū	pêche (fruit)	n.m.
आतंक	ātāṅka	terreur, panique	n.m.
आतंकवाद	ātāṅkavād	terrorisme	n.m.

आतंकवादी	ātaṅkavādī	terroriste	n.m.
आतशिबाज़ी	ātisbāzī	feu d'artifice, pyrotechnie	n.f.
आत्महत्या	ātmahatyā	suicide	n.f.
आदत	ādat	habitude	n.f.
आदमी	ādmī	homme	n.m.
आदर्श	ādarśa	idéal, modèle	adj.
आदर्श	ādarśa	idéal, modèle	n.m.
आदर्शवाद	ādarśavād	idéalisme	n.m.
आर्दा	ādi	et cetera	adv.
आधुनिक	ādhunik	moderne, modernisé	adj.
आधुनिकीकरण	ādhunikīkaraṇ	modernisation	n.m.
आनंद	ānand	joie, bonheur	n.m.
आनंदति	ānandit	heureux, ravi	adj.
आना	ānā	venir, arriver	vb. int.
आप	āp	vous (respect. pluriel)	pron. pers.
आपका	āpkā	votre	adj. pos
आपका	āpkā	votre (le ...)	pron. pos
आपस में	āpas mẽ	mutuellement, réciproquement	adv.
आम	ām	mangue	n.m.
आम	ām	commun, général, public	adj.
आम तौर पर	ām taur par	en général, ordinairement	loc. adv.
आम तौर से	ām taur se	en général, ordinairement	loc. adv.
आरंभ	ārambha	début, commencement	n.m.
आरंभ करना	ārambha karnā	commencer, initier	vb. tr.
आरंभ होना	ārambha honā	être commencé, commencer	vb. int.
आरती	ārtī	geste rituel hindou	n.f.
आरा	ārā	grande scie, harpon	n.m.

आराम	ārām	repos, confort, soulagement	n.m.
आरी	ārī	petite scie	n.f.
आर्थिक	ārthik	économique	adj.
आलपीन	ālpīn	épingle	n.f.
आलमारी	ālmārī	armoire	n.f.
आलू	ālū	pomme de terre	n.m.
आलूचा	ālūcā	prune	n.m.
आलोचना	ālocnā	critique, examen détaillé	n.f.
आवश्यक	āvaśyak	nécessaire	adj.
आवश्यकता	āvaśyaktā	nécessité, besoin, exigence	n.f.
आवाज़	āvāz	voix, bruit	n.f.
आवाज़ उठाना	āvāz uṭhānā	hausser la voix, le ton, protester	vb. tr.
आवाज़ देना	āvāz denā	crier, appeler	vb. tr.
आवाज़ देना (किसी को)	kisī ko āvāz denā	appeler quelqu'un	vb. tr.
आवारा	āvārā	vagabond, licencieux	adj.
आवारा	āvārā	vagabond	n.m.
आशा	āsā	espoir, espérance	n.f.
आशावाद	āsāvād	optimisme	n.m.
आश्च होना (किसी को)	(kisī ko) āścarya honā	être surpris, étonné	vb. int.
आश्चर्य	āścarya	étonnement, surprise	n.m.
आश्वस्त	āśvasta	rassuré, convaincu	adj.
आश्वासक	āśvāsak	rassurant, réconfortant	adj.
आश्वासन	āśvāsan	assurance, encouragement, consolation	n.m.
आश्वासन दिलाना	āśvāsan dilānā	assurer de, consoler	vb. tr.
आश्वासन देना	āśvāsan denā	assurer de, consoler	vb. tr.
आसमान	āsmān	ciel	n.m.
आसमानी	āsmānī	azur, bleu ciel (couleur)	adj.

इंजीनयिर	iñjīniyar	ingénieur	n.m.
इंडिया	iñḍiyā	Inde (terme anglais)	n.
इंतज़ाम	intazām	arrangement, organisation, préparatifs	n.m.
इंतज़ाम करना	intazām karnā	arranger, organiser, prendre des dispositions	vb. tr.
इंतज़ाम होना	intazām honā	être prévu, arrangé, organisé	vb. int.
इंतज़ार	intazār	attente	n.m.
इंतज़ार करना (का)	intazār karnā (kā)	attendre	vb. tr.
इंद्रवधू	indravadhū	coccinelle	n.f.
इकतालीस	iktālīs	quarante et un	nombre 041
इकत्तीस	ikttīs	trente et un	nombre 031
इकसठ	iksaṭh	soixante et un	nombre 061
इकहत्तर	ikahattar	soixante et onze	nombre 071
इक्कीस	ikkīs	vingt et un	nombre 021
इक्यानवे	ikyānave	quatre-vingt onze	nombre 091
इक्यावन	ikyāvan	cinquante et un	nombre 051
इक्यासी	ikyāsī	quatre-vingt un	nombre 081
इच्छा	icchā	désir, volonté, souhait	n.f.
इतवार	(7) itvār	dimanche	n.m.
इतहास	itihās	histoire	n.m.
इत्यादी	ityādi	et cetera	adv.
इधर	idhar	par ici, de ce coté ci	loc. adv
इनकलाब	inqalāb	révolution	n.m.
इनकलाबी	inqalābī	révolutionnaire	adj.
इनकलाबी	inqalābī	révolutionnaire	n.m.
इनकार	inkār	refus, négation	n.m.
इनकार करना	inkār karnā	refuser de , nier	vb. tr.
इनकार करना (V-ने से)	inkār karnā (V-ne se)	refuser de + verbe	vb. tr.

इनाम	inām	prix, récompense, pourboire	n.m.
इमारत	imārat	bâtiment, immeuble	n.f.
इरादा	irādā	intention	n.m.
इलायची	ilāyčī	cardamome	n.f.
इल्ली	illī	chenille	n.f.
इश्तहार	īstahār	annonce publicitaire, affiche	n.m.
इसका	iskā	son (de celui-ci)	adj. pos
इसका	iskā	le sien (de celui-ci)	pron. pos
इस्तेमाल	istemāl	usage, utilisation, emploi	n.m.
इस्तेमाल करना (का)	istemāl karnā (ka)	utiliser, faire usage	vb. tr.
ईमान	īmān	honnêteté, intégrité	n.m.
ईमानदार	īmāndār	honnête	adj.
उँगली	ūglī	doigt	n.f.
उछलना	uchalnā	sauter, bondir, rebondir	vb. int.
उछालना	uchālnā	faire rebondir, jeter, lancer en l'air	vb. tr.
उठना	uṭhnā	se lever	vb. int.
उठवाना	uṭhvānā	faire lever (qqch.), faire réveiller	vb. tr.
उठाना	uṭhānā	lever, soulever	vb. tr.
उड़ना	uṛnā	voler, s'envoler, disparaître	vb. int.
उड़ान	uṛān	vol, envol	n.f.
उड़ाना	uṛānā	faire voler, faire s'envoler	vb. tr.
उतरना	utarnā	descendre	vb. int.
उत्तर	uttar	réponse, Nord	n.m.
उत्पादन	utpādan	production, produit, reproduction	n.m.
उत्सव	utsava	fête, festivité, célébration	n.m.
उदास	udās	malheureux, triste	adj.
उदासी	udāsī	tristesse, mélancolie	n.f.

उद्योग	udyog	travail, effort, industrie	n.f.
उधर	udhar	par là, de ce coté là	loc. adv
उनचास	uncās	quarante neuf	nombre 049
उनतालीस	untālīs	trente neuf	nombre 039
उनतीस	untīs	vingt neuf	nombre 029
उनसाठ	unsāṭh	cinquante neuf	nombre 059
उनहत्तर	unhattar	soixante neuf	nombre 069
उनासी	unāsī	soixante dixneuf	nombre 079
उन्नीस	unnīs	dix-neuf	nombre 019
उपकार	upkār	bienfait	n.m.
उपकारक	upkārak	bienfaiteur	n.m.
उपकारक	upkārak	bienfaiteur, bienfaisant, favorable	adj.
उपकारी	upkārī	bienfaiteur	n.m.
उपकारी	upkārī	bienfaiteur, bienfaisant, favorable	adj.
उपन्यास	upanyās	roman	n.m.
उम्र	umra	âge, durée de vie	n.f.
उलटा	ulṭā	renversé, retourné, opposé	adj.
उल्लू	ullū	hibou	n.m.
उल्लू बनाना	ullū banānā	se moquer de, ridiculiser	vb. tr.
उसका	uskā	son	adj. pos
उसका	uskā	le sien	pron. pos
उस्तरा	ustarā	rasoir (à lame)	n.m.
ऊँघना	ūghnā	somnoler, s'assoupir	vb. int.
ऊँचा	ūcā	haut	adj.
ऊँचाई	ūcāī	hauteur	n.f.
ऊँट	ūṭ	chameau, dromadaire	n.m.
ऊपर	ūpar	en haut	adv.

ऊबना	ūbnā	s'ennuyer, en avoir assez	vb. int.
ऋतु	ritu	saison	n.f.
ऋतु वज्जान	ritu-vijñān	météorologie	n.m.
एक	ek	un	nombre 001
एक दूसरे	ek dūsre	l'un l'autre, l'une l'autre, les uns les autres	adv.
एक दूसरे से (को)	ek dūsre se (ko)	mutuellement, réciproquement	adv.
एक-सा	ek-sā	similaire, semblable	adj.
एकाएक	ekāek	soudain, tout à coup	adv. tps
एकीकरण	ekīkaraṇ	unification, assimilation, intégration	n.m.
एड़ी	eṛī	talon (du pied)	n. m
एतबार	etbār	confiance, foi, croyance	n.m.
ऐतहासिक	aitihāsik	historique	adj.
ऐलान	ailān (= elān)	déclaration, annonce	n.m.
ऐसा	aisā	tel, pareil	adj.
ऐसा	aisā	ainsi	adv.
ओर	or	direction, coté	n.f.
औज़ार	auzār	outil, instrument	n.m.
औद्योगिक	audyogik	industriel	adj.
औद्योगीकरण	audyogīkaraṇ	industrialisation	n.m.
और	aur	et	conj. coord.
औरत	aurat	femme, épouse	n.f.
कंघा	kaṅgha	peigne	n.m.
कंजूस	kañjūs	avare, parcimonieux	adj.
कंजूसी	kañjūsī	avarice, parcimonie	n.f.
कंधा	kandhā	épaule	n.m.
कंबल	kambal	couverture	n.m.
कई	kaī	plusieurs	adj.

ककड़ी	kakṛī	concombre (variété de)	n.f.
कच्चा	kaccā	cru, vert (pas mur), imparfait	adj.
कछुआ	kachuā	tortue	n.m.
कटन	kaṭan	incision, coupure	n.f.
कटना	kaṭnā	être coupé, se couper	vb. int.
कटवाना	kaṭvānā	faire couper, faire moissonner	vb. tr.
कटोरा	kaṭorā	grand bol	n.m.
कट्टर	kaṭṭar	strict, dur, dogmatique, fanatique	adj.
कट्टरता	kaṭṭartā	dureté, dogmatisme, fanatisme	n.f.
कठपुतली	kaṭhputlī	marionette (homme de paille)	n.f.
कठनि	kaṭhin	dur, difficile, ardu, sévère	adj.
कठनिाई	kaṭhināī	difficulté	n.f.
कठोर	kaṭhor	dur, sévère, cruel, rigide	adj.
कठोरता	kaṭhortā	dureté, rigueur, rigidité, austérité	n.f.
कड़वा	kaṛvā	amer	adj.
कड़ाही	kaṛāhī	poêle à frire	n.f.
कथा	kathā	histoire, conte, discours religieux	n.f.
कदाचित्	kadācit	peut-être	adv.
कन्या	kanyā	filles, vierge	n.f.
कपड़ा	kapṛā	vêtement	n.m.
कब	kab	quand ?	adv. tps.
कब तक	kab tak ?	jusqu'à quand ?	loc. adv
कब से	kab se ?	depuis quand ?	loc. adv
कबूतर	kabūtar	pigeon	n.m.
कबूतरखाना	kabūtar-khānā	pigeonnier	n.m.
कभी	kabhī	une fois	adv. tps.
कभी कभी	kabhī kabhī	parfois, de temps en temps	adv. tps

कभी नहीं	kabhī nahī	jamais	adv.tps
कम	kam	peu, moins	adj.
कम	kam	rarement	adv. tps.
कमज़ोर	kamzor	faible, sans force	adj.
कमज़ोरी	kamzorī	faiblesse, déficience	n.f.
कमर	kamar	taille, reins, bas du dos	n.f.
कमरा	kamrā	chambre, pièce	n.m.
कमाई	kamāī	revenu, gain	n.f.
कमाई करना	kamāī karnā	gagner (un salaire, une rétribution)	vb. tr.
कमाना	kamānā	gagner, travailler le cuir, nettoyer	vb. tr.
कमी	kamī	manque, rareté	n.f.
कमी होना (किसी को...की)	kamī honā (kisī ko...kī)	manquer de ...	vb. tr.
कमीज़	kamīz	chemise, tunique	n.f.
करके	karke	"en faisant" (forme irr. de karnā)	vb. tr.
करछी	karchī	louche, grande cuillère	n.f.
करना	karnā (irrégulier)	faire	vb. tr.
करवाना	karvānā	faire faire	vb. tr.
कराना	karānā	faire faire (à quelqu'un)	vb. tr.
करोड़	kroṛ	dix millions	nombre 10000000
कर्मचारी	karmacārī	employé, fonctionnaire	n.m.
कल	kal	demain, hier	adv.tps
कला	kalā	art, jeu, sport	n.f.
कलाकार	kalākār	artiste	n.m.
कलाबाज़	kalābāz	acrobate	n.m.
कलाबाज़ी	kalābāzī	acrobatie	n.f.
कलेजा	kalejā	foie	n.m.
कल्पना	kalpnā	imagination, supposition, fiction	n.f.

कल्पनीय	kalpnīya	imaginable	adj.
कवी	kavi	poète	n.m.
कविता	kavitā	poésie, composition poétique	n.f.
कष्ट	kaṣṭa	souffrance, peine, malheur	n.m.
कसना	kasnā	réduire en petits morceaux, râper, essayer	vb. tr.
कसरत	kasrat	exercice physique, abondance	n.f.
कसाई	kasāī	boucher	n.m.
कसूर	qasūr	faute, erreur, culpabilité	n.m.
कहना	kahanā	dire, déclarer	vb. tr.
कहाँ	kahā̃	où ?	adv. Interro
कहाँ तक	kahā̃ tak ?	jusqu'où ?	loc. adv
कहाँ से	kahā̃ se ?	d'où ?	loc. adv
काँपना	kāmpnā	trembler, frissonner	vb. int.
कागज़	kāgaz	papier	n.m.
कागज़ात	kāgzāt	papiers, documents	n.m.
काट	kaṭ	coupure	n.m.
काटना	kāṭnā	couper, mordre, moissonner	vb. tr.
कान	kān	oreille	n.m.
कानून	kānūn	loi, statut, règlement	n.m.
काफी	kāfī	suffisant, adéquat, assez	adj.
काबलि	qābil	capable, compétent, digne	adj.
काबलियत	qābilyat	compétence, aptitude, capacité	n.f.
काम	kām	travail, emploi, tâche	n.m.
काम करना	kām karnā	travailler	vb. int.
कायदा	kāydā	règle, pratique, méthode	n.m.
कारखाना	kārkhānā	usine, atelier	n.m.
कारीगर	kārīgar	artisan	n.m.

कार्य	kārya	travail, tâche, foction, action	n.m.
कार्यक्रम	kāryakram	programme, emploi du temps	n.m.
कार्यालय	kāryālaya	bureau, département (admin.)	n.m.
काल	kāl	temps, ère, pèriode, saison	n.m.
काला	kālā	noir, sombre	adj.
काली मर्च	kālī mirc	poivre	n.f.
कालीन	qālīn	tapis	n.m.
कड़ा	kiṛā	ver	n.m.
कतिना	kitnā	combien	adj. Interro
कतिना	kitnā	comme	adv.
कतिब	kitāb	livre	n.f.
कतिबखाना	kitābkhānā	bibliothèque	n.m.
कधिर	kidhar	par où ? de quel coté ?	loc. adv
करिया	kirāyā	loyer, tarif	n.m.
करिये का	kirāye kā	à louer, en location	adj.
करिये पर देना	kirāye par denā	louer (donner en location)	vb. tr.
करिये पर लेना	kirāye par lenā	louer (prendre en location)	vb. tr.
करियेदार	kirāyedār	locataire	n.m.
क़िला	qilā	forteresse, fort, chateau	n.m.
कसिान	kisān	paysan	n.m.
कस्मि	kism	sorte, espèce, genre	n.f.
कस्मिमत	qismat	destin, sort, chance	n.f.
की ओर	kī or	en direction de, vers	post pos.
की वजह से	kī vajah se	à cause de	post pos.
कुआँ	kuā	puits	n.m.
कुकुर मुत्ता	kukur-muttā	champignon	n.m.
कुछ	kuch	un peu, quelques-uns	adj.

कुछ	kuch	un peu, quelques-uns	pron.
कुत्ता	kuttā	chien	n.m.
कुदाल	kudāl	pioche	n.m.
कुमारी	kumārī	vierge (jeune fille)	adj.
कुमारी	kumārī	mademoiselle, jeune fille	n.f.
कुम्हार	kumhār	potier	n.m.
कुरता	kurtā	tunique ample	n.m.
कुरसी	kursī	chaise	n.f.
कुरूप	kurūp	laid	adj.
कुरूपता	kurūptā	laideur	n.f.
कुशल	kuśal	doué, adroit, habile	adj.
कुहनी	kuhanī	coude	n.f.
कुहरा	kuharā	brouillard	n.m.
कूदना	kūdānā	sauter, bondir	vb. int.
कृपया	kripayā	s'il vous plait	adv.
के अंदर	ke andar	dans, à l'intérieur de	post pos.
के अनुकूल	ke anukūl	selon, en accord avec	post pos.
के अनुसार	ke anusār	conformément à, suivant, d'après	post pos.
के ऊपर	ke ūpar	au-dessus de	post pos.
के करीब	ke qarīb	près de	post pos.
के कारण	ke kārṇa	à cause de	post pos.
के किनारे	ke kināre	au bord de	post pos.
के खिलाफ	ke khilāf	au contraire, contrairement à	adv.
के चारों ओर	ke cārō or	tout autour de	post pos.
के दौरान	ke daurān	pendant	adv. tps
के द्वारा	ke dvārā	par, au moyen de	post pos.
के नज़दीक	ke nazdīk	près de	post pos.

के नीचे	ke nīce	sous, en-dessous de	post pos.
के पास	ke pās	près de	post pos.
के पीछे	ke pīche	à l'arrière de	post pos.
के प्रति	ke prati	envers	post pos.
के बगैर	ke bagair	sans	post pos.
के बजाय	ke bajāy	au lieu de, à la place de	post pos.
के बाद	ke bād	après	post pos.
के बारे में	ke bāre mẽ	à propos de	post pos.
के बावजूद	ke bāvajūd	en dépit de, malgré, bien que	post pos.
के बाहर	ke bāhar	à l'extérieur de	post pos.
के बिना	ke binā	sans	post pos.
के बीच	ke bīc	au milieu, parmi,	post pos.
के बीच में	ke bīc mẽ	au milieu de	post pos.
के मारे	ke māre	à cause de	post pos.
के यहाँ	ke yahā	chez	post pos.
के लायक	ke lāyaq	convenable à, convenable pour	post pos.
के लिए	ke lie	pour	post pos.
के विरुद्ध	ke viruddha	contre	adv.
के सामने	ke sāmne	en face de	post pos.
के सिवा	ke sivā	excepté, à part	post pos.
केंद्र	kendra	centre	n.m.
केंद्रीकरण	kendrīkaraṇ	centralisation, concentration	n.m.
केला	kelā	banane	n.m.
केवल	keval	seulement, uniquement	adv.
केसर	kesar	safran	n.f.
केसरिया	kesariyā	safran (couleur)	adj.
कैंची	kaiñcī	ciseaux	n.f.

कैद	qaid	emprisonnement, incarcération	n.f.
कैदखाना	qaidkhānā	prison	n.m.
को मज़ाक़ समझना	ko mazāq samajhnā	prendre à la légère	vb. tr.
कोयल	koyal	coucou (oiseau)	n.f.
कोशिश	kośiś	effort, essai	n.f.
कोशिश करना	kośiś karnā	s'efforcer de, essayer de	vb. tr.
कौआ	kauā	corbeau	n.m.
कौन	kaun	qui ?	pron. interro
कौनसा	kaunsā	lequel	adj. Interro
कौनसा	kaunsā	lequel	pron.
कौशल	kausāl	dextérité, habileté	n.m.
क्या	kyā	quoi, quel, est ce que ?	pron. interro
क्योंकि	kyōki	parce que	adv.
क्रम	kram	ordre, système, série, rang	n.m.
क्राँति	krānti	révolution	n.f.
क्राँतिकारी	krāntikārī	révolutionnaire	adj.
क्राँतिकारी	krāntikārī	révolutionnaire	n.m.
क्रिया	kriyā	action, acte, verbe	n.f.
क्रोध	krodh	colère, rage, furie	n.m.
क्षत्रिय	kṣatriya	caste des guerriers	n.m.
क्षेत्र	kṣetra	champ, région, étendue	n.m.
क्षेत्रवाद	kṣetravād	régionalisme	n.m.
खंडहर	khaṇḍahar	ruine	n.m.
खजूर	khajūr	datte	n.f.
खट्टा	khaṭṭā	acide	adj.
खड़ा	kharā	debout, vertical, prêt, entier	adj.
खड़ा करना	kharā karnā	mettre debout, ériger, initier	vb. tr.

खड़ा रखना	kharā rakhnā	maintenir, supporter	vb. tr.
खड़ा रहना	kharā rahanā	rester debout, attendre	vb. int.
खड़ा होना	kharā honā	être debout, se lever, surgir	vb. int.
खड़े-खड़े	khare-khare	debout, immédiatement	adv.
खत	khat	lettre, missive, écriture, ligne	n.m.
खतरनाक	khatarnāk	dangereux, périlleux	adj.
खतरा	khatrā	danger, risque	n.m.
खतरा होने पर	khatrā hone par	en cas de danger	expr.
खतरे की घंटी	khatre kī ghaṅṭī	signal d'alarme	locut.
खतरे में डालना	khatre mẽ ḍālnā	mettre en danger	vb. tr.
खतरे से खेलना	khatre se khelnā	jouer avec le feu	vb. tr.
खतरे से बाहर होना	khatre se bāhar honā	être hors de danger	expr.
खत्म (खतम)	khatma (khatam)	fini, terminé, achevé, conclu	adj.
खत्म करना	khatma karnā	achever, terminer	vb. tr.
खत्म होना	khatma honā	être terminé	vb. int.
खबर	khabar	nouvelles, information	n.f.
खयाल	khayāl	pensée, idée, (+ style musical)	n.m.
खयाल आना (किसी को)	khayāl ānā (kisī ko)	penser à, se souvenir de	vb. int.
खयाल करना	khayāl karnā	penser à, faire attention à	vb. tr.
खयाली	khayālī	imaginaire, fantaisiste, illusoire	adj.
खयाली पुलाव पकाना	khayālī pulāv pakānā	faire des châteaux en Espagne	expres.
खरबूज़ा	khARBūzā	melon	n.m.
खराब	kharāb	mauvais, méchant, abîmé	adj.
खरीद	kharīd	achat	n.f.
खरीदना	kharīdnā	acheter	vb. tr.
खरीदार	kharīdār	acheteur, client	n.m.
खलनायक	khalnāyak	vilain, anti-héros	n.m.

खलबली	khalbālī	désordre, agitation, commotion	n.f.
खशमज़िज़	khūsmizāj	qui a bon caractère, enjoué, gai	adj.
खाक	khāk	poussière, cendre, chose insignifiante	n.f.
खाट	khāṭ	lit (de planches)	n.f.
खातरि	khātir	accueil, respect, estime	n.f.
खातरि करना (किसी की)	khātir karnā (kisī kī)	accueillir quelqu'un	vb. tr.
खादी	khādī	tissu de coton filé et tissé à la main	n.f.
खाना	khānā	manger	vb. tr.
खाली	khālī	vide, libre, disponible, sans travail	adj.
खास	khās	particulier, spécifique, caractéristique	adj.
खास तौर से	khās taur se	en particulier, de façon particulière	loc. adv
खासियत	khāsiyat	particularité, spécificité, caractéristique	n.f.
खासी	khāsi	particulièrement	adv.
खचिड़ी	khicṛī	plat à base de riz et de lentilles	n.f.
खड़की	khirkī	fenêtre	n.f.
खलिना	khilnā	fleurir, s'épanouir, éclore, se réjouir	vb. int.
खलिवाना	khilvānā	faire manger, faire nourrir	vb. tr.
खलाड़ी	khilārī	joueur	n.m.
खलाना	khilānā	faire manger, nourrir	vb. tr.
खलाना	khilānā	faire fleurir, faire s'ouvrir	vb. tr.
खलाना	khilānā	faire jouer	vb. tr.
खलिाफ	khilāf	opposé à	adj.
खलिाफत	khilāfat	opposition, antagonisme	n.f.
खीर	khīr	riz au lait	n.f.
खीरा	khīrā	concombre	n.m.
खुद	khud	de soi-même, tout seul	adv.
खुद	khud	soi-même	pron. réfl.

खुदकुशी	khudkuśī	suicide	n.f.
खुमानी	khumānī	abricot	n.f.
खुलना	khulnā	être ouvert, s'ouvrir, être détaché	vb. int.
खुला	khulā	ouvert, découvert, chaleureux	adj.
खुले आम	khule ām	ouvertement, publiquement	adv.
खुले बाज़ार	khule bāzār	ouvertement, publiquement	adv.
खुले मैदान	khule maidān	ouvertement, publiquement	adv.
खुश	khuś	heureux	adj.
खुशकस्मित	khuśqismat	fortuné, chanceux	adj.
खुशकस्मिती	khuśqismatī	fortune, chance	n.f.
खुशबू	khuśbū	parfum, arôme, bonne odeur	n.f.
खुशबूदार	khuśbūdār	parfumé	adj.
खुशमज़िज़ी	khuśmizājī	bon caractère, gaité	n.f.
खुशहाल	khuśhāl	heureux, prospère, florissant	adj.
खुशी	khuśī	joie, bonheur	n.f.
खून	khūn	sang	n.m.
खून करना (किसी को)	khūn karnā (kisī ko)	tuer, assassiner quelqu'un	vb. tr.
खूब	khūb	bien, parfait, excellent	adj.
खूब	khūb	très, beaucoup, complètement	adv.
खूबसूरत	khūbsūrat	beau, joli	adj.
खूबसूरती	khūbsūratī	beauté	n.f.
खेल	khel	jeu, sport, rôle (théâtre)	n.m.
खेलना	khelnā	jouer	vb. int.
खैर	khair	enfin, tant pis	adv.
खैर	khair	bien-être	n.f.
खैर से	khair se	sain et sauf, en bon état	adv.
खैरियत	khairiyat	bien-être	n.f.

खैरियत से	khairiyat se	sain et sauf, en bon état	adv.
खोलना	kholnā	ouvrir	vb. tr.
ख्वाब	khvāb	rêve	n.m.
ख्वाब देखना	khvāb dekhnā	réver	vb. tr.
गड़गड़ाहट	garḡarāhaṭ	gargouillement, grondement (= tonnerre)	n.f.
गधा	gadhā	âne, personne stupide	n.m.
गरज	garaj	tonnerre, grondement	n.f.
गरजना	garajnā	gronder, rugir, tonner	vb. int.
गरम	garam	chaud	adj.
गरमियों का मौसम	garmiyō kā mausam	saison chaude (été)	n.m.
गरमी	garmī	chaleur, été, passion, colère	n.f.
ग़रीब	garīb	pauvre, humble	adj.
ग़रीब	garīb	homme pauvre	n.m.
ग़रीबी	garībī	pauvreté, pénurie	n.f.
गर्मी पड़ना	garmī paṛnā	faire chaud	vb. int.
गर्मी लगना (किसी को)	garmī lagnā (kisī ko)	avoir chaud	vb. int.
ग़लत	galat	erroné, faux, incorrect	adj.
ग़लती	galtī	erreur, faute	n.f.
गला	galā	gorge, cou	n.m.
गली	galī	ruelle	n.f.
गवाह	gavāha	témoin	n.m.
गवाही	gavāhī	témoignage	n.f.
गहरा	gaharā	foncé, sombre, intime, grave	adj.
गाँव	gāv	village	n.m.
गाँववाला	gāvavālā	villageois	adj.
गाँववाला	gāvavālā	villageois	n.m.
गाँवार	gāvār	villageois rustre, cul terreux, inculte	adj.

गाँवार	gāvār	villageois rustre, cul terreux, inculte	n.m.
गाजर	gājar	carotte	n.f.
गाड़ी	gārī	véhicule, voiture, train	n.f.
गाना	gānā	un chant, une chanson	n.m.
गाना	gānā	chanter	vb. tr.
गाय	gāya	vache	n.f.
गायक	gāyak	chanteur, musicien	n.m.
गाल	gāl	joue	n.m.
गद्ध	giddha	vautour	n.m.
गरिना	girnā	tomber, trébucher	vb. int.
गरिवी	girvī	gage, hypothèque	n.f.
गरिना	girānā	faire tomber	vb. tr.
गलिहरी	gilharī	écureuil	n.f.
गीत	gīt	chanson	n.m.
गीदड़	gīdar	chacal, personne timide	n.m.
गीला	gīlā	humide, mouillé	adj.
गीलापन	gīlāpan	humidité	n.m.
गुंडा	guṇḍā	vandale, voyou, hooligan	n.m.
गुज़र	guzar	subsistance, vie, temps,	n.f.
गुज़र जाना	guzar jānā	mourir	vb. int.
गुज़रना	guzarnā	passer	vb. int.
गुज़ारना	guzārnā	passer (le temps, la vie)	vb. tr.
गुज़ारा	guzārā	subsistance, vie, temps,	n.m.
गुट	guṭ	bloc, faction, clique, groupe	n.m.
गुण	guṇ	qualité, attribut, vertu	n.m.
गुरु	guru	long (syllabe), dur, difficile	adj.
गुरु	guru	maitre	n.m.

गुरुवार	(4) guruvār	jeudi (jour du guru)	n.m.
गुलाबी	gulābī	rose (couleur)	adj.
गुसल	gusal	bain	n.m.
गुसलखाना	gusalkhānā	salle de bain	n.m.
गुस्सा	gussā	colère	n.m.
गुस्सा	gussā	colère, rage, furie	n.m.
गुस्सा अतारना (किसी पर)	gussā atārnā (kisī par)	passer sa colère sur quelqu'un	vb. tr.
गुस्सा आना (किसी को)	gussā ānā (kisī ko)	éprouver de la colère, se mettre en colère	vb. int.
गुस्सेबाज़	gussebāz	coléreux, irascible	adj.
गूँगा	gūṅgā	muet	adj.
गूँगा	gūṅgā	muet	n.m.
गूँज	gūñj	bourdonnement d'abeille, résonance	n.f.
गेंद	gend	balle	n.f.
गेहूँ	gehū	blé	n.m.
गोभी	gobhī	chou, chou-fleur	n.f.
गोश्त	gošta	viande, chair	n.m.
ग्यारह	gyārah	onze	nombre 011
ग्रंथ	grantha	livre, volume	n.m.
ग्रंथालय	granthālaya	bibliothèque, salle de lecture	n.m.
ग्राम	grām	village	n.m.
ग्रामीण	grāmīṇ	villageois, rural	adj.
ग्रामीण	grāmīṇ	villageois, rural	n.m.
घंटा	ghaṅṭā	heure (une), cloche	n.m.
घड़ी	gharī	montre	n.f.
घबड़ाना	ghabrānā	s'agiter, s'énerver, paniquer	vb. int.
घबराना	ghabrānā	s'énerver, s'inquiéter	vb. int.
घबराहट	ghabrāhaṭ	nervosité, inquiétude, panique	n.f.

घर	ghar	maison	n.m.
घास	ghās	herbe	n.f.
घी	ghī	ghi, beurre clarifié	n.m.
घुटना	ghuṭnā	genou	n.m.
घुमाना	ghumānā	promener	vb. tr.
घुलना	ghulnā	être dissout, être mélangé	vb. int.
घुसना (घुसड़ना)	ghusnā (= ghusaṛnā)	pénétrer dans, entrer par force	vb. int.
घूँघट	ghūṅhaṭ	voile de femme	n.m.
घूमना	ghūmnā	se promener, flâner	vb. int.
घूमाना	ghūmānā	faire promener	vb. tr.
घोड़ा	ghoṛā	cheval	n.m.
घोड़ी	ghoṛī	jument	n.f.
घोलना	gholnā	dissoudre, mélanger	vb. tr.
घोषणा	ghoṣṇā	déclaration, proclamation	n.f.
घोषणा-पत्र	ghoṣṇā-patra	déclaration, proclamation écrite	n.m.
घोषति	ghoṣit	déclaré, proclamé	adj.
चकराना	cakrānā	tourner	vb. tr.
चकति	cakit	surpris, étonné, stupéfait	adj.
चकोतरा	cakotrā	pamplemousse	n.m.
चखना	cakhnā	goûter, apprécier	vb. int.
चचेरा भाई	cacerā bhāī	cousin (fils du frère cadet du père)	n.m.
चढ़ना	caṛhnā	monter, grimper	vb. int.
चढ़ाना	caṛhānā	faire monter	vb. tr.
चढ़ाव	caṛhāv	montée	n.m.
चतुर	catur	doué, habile, sage, rusé	adj.
चना	canā	pois chiche	n.m.
चपरासी	caprāsī	ordonnance, commis, garçon de bureau	n.m.

चबाना	cabānā	mastiquer, mâcher	vb. tr.
चबालीस	cabālīs	quarante quatre	nombre 044
चमक	camak	éclat, lustre	n.f.
चमकदार	camakdār	brillant	adj.
चमकना	camaknā	briller, scintiller, s'énerver	vb. int.
चमकाना	camkānā	faire briller	vb. tr.
चमार	camār	cordonnier, (terme d'injure)	n.m.
चम्मच	cammac	cuillère	n.m.
चरखा	carkhā	rouet	n.m.
चल	cal	mobile, instable, transitoire, variable	adj.
चलना	calnā	marcher, avancer, bouger	vb. int.
चलाना	calānā	faire marcher, conduire,	vb. tr.
चश्मा	caśmā	lunettes, fontaine, source	n.m.
चाकू	cāqū	couteau	n.m.
चाचा	cācā	oncle (frère cadet du père)	n.m.
चाची	cācī	tante (épouse du frère cadet du père)	n.f.
चादर	cādar	drap, voile (des femmes)	n.f.
चाबी	cābī	clef	n.f.
चाय	cāy	thé	n.f.
चायदानी	cāydānī	théière	n.f.
चार	cār	quatre	nombre 004
चारों	cārō	tous les quatre	pron.
चाल	cāl	mouvement, marche, vitesse	n.m.
चालाक	cālāk	rusé, habile	adj.
चालीस	cālīs	quarante	nombre 040
चावल	cāval	riz	n.m.
चाहना	cāhanā	vouloir, désirer, souhaiter	vb. tr.

चाहे	cāhe	ou...ou bien, même si...pourtant	adv.
चाहे □ ... अथवा Y ...	cāhe X... athvā Y...	soit X... soit Y..., pourtant X... cependant Y...	adv.
चाहे □ ...चाहे Y ...	cāhe X... cāhe Y...	soit X... soit Y..., pourtant X... cependant Y...	adv.
चाहे □ ...या Y ...	cāhe X... yā Y...	soit X... soit Y..., pourtant X... cependant Y...	adv.
चिंता	cintā	anxiété, souci, inquiétude	n.f.
चिट्ठी	ciṭṭhī	lettre	n.f.
चड़िया	ciṛiyā	oiseau, moineau	n.f.
चिल्लाना	cillānā	crier, hurler	vb. int.
चिल्लाहट	cillāhaṭ	cri, hurlement	n.f.
चीज़	cīz	chose, objet, article	n.f.
चीता	cītā	panthère	n.m.
चीता	cītā	désiré, souhaité	adj.
चीता	cītā	léopard, panthère	n.m.
चुकना	cuknā	être terminé, être réglé (terminatif ≈ déjà)	vb. int.
चुन्नी	cunnī	écharpe	n.f.
चूहा	cūhā	rat	n.m.
चेतना	cetnā	conscience, animation	n.f.
चेतना	cetnā	être conscient, être animé, s'animer	vb. int.
चेहरा	ceharā	visage, face, masque	n.m.
चैन	cain	repos, tranquillité, calme	n.m.
चोर	cor	voleur, cambrioleur	n.m.
चोरानवे	caurānave	quatre-vingt quatorze	nombre 094
चौतीस	cauntīs	trente quatre	nombre 034
चौसठ	chaunsaṭh	soixante quatre	nombre 064
चौड़ा	caurā	large, vaste	adj.
चौथा	04 chauthā	quatrième	nombre ord.
चौदह	chaudah	quatorze	nombre 014

चौबीस	chaubīs	vingt quatre	nombre 024
चौरासी	caurāsī	quatre-vingt quatre	nombre 084
चौवन	chauvan	cinquante quatre	nombre 054
चौहत्तर	cauhattar	soixante quatorze	nombre 074
छक्के	chakke	unité de six (au cricket)	n.m.
छठा	06 chaṭhā	sixième	nombre ord.
छत	chat	plafond, toit	n.f.
छत्तीस	chattīs	trente six	nombre 036
छपना	chapnā	être imprimé	vb. int.
छपाई	chapāī	impression (d'imprimerie)	n.f.
छप्पन	chappan	cinquante six	nombre 056
छब्बीस	chabbīs	vingt six	nombre 026
छलाँगना	chalāṅnā	sauter	vb. int.
छलाँग	chalāṅg	bond, saut	n.f.
छलाँग मारना	chalāṅg mārṅnā	sauter, bondir	vb. tr.
छाता	chātā	parapluie	n.m.
छाती	chātī	sein, poitrine	n.f.
छात्र	chātr	étudiant	n.m.
छात्रा	chātrā	étudiante	n.f.
छानना	chānnā	filtrer, passer, chercher	vb. tr.
छापना	chāpnā	imprimer	vb. tr.
छपिकली	chipkalī	lézard	n.f.
छपिना	chipnā	se cacher, être caché	vb. int.
छपिना	chipānā	cacher, dissimuler, voiler, déguiser	vb. tr.
छयानवे	chiyānave	quatre-vingt seize	nombre 096
छयालीस	chiyālīs	quarante six	nombre 046
छयासठ	chiyāsaṭh	soixante six	nombre 066

छयासी	chiyāsī	quatre-vingt six	nombre 086
छहित्तर	chihattar	soixante seize	nombre 076
छुट्टी	chuttī	congé, vacances	n.f.
छुड़ाई	churāī	libération	n.f.
छुड़ाना	churānā	libérer, faire lâcher	vb. tr.
छुपना	chupnā	se cacher, être caché	vb. int.
छुपाना	chupānā	caler, dissimuler, voiler, déguiser	vb. tr.
छूटना	chūṭnā	être abandonné, être libéré	vb. int.
छूत	chūt	fait d'être touché, contamination, impureté	n.f.
छूत का-की	chūt kā / kī	contagieux	adj.
छूत की बमिारी	chūt kī bimārī	maladie contagieuse	n.f.
छूत-छात	chūt chāt	intouchabilité	n.m.
छूना	chūnā	toucher, sentir	vb. tr.
छे	che	six	nombre 006
छेड़ना	cheṛnā	taquiner, irriter, exciter	vb. tr.
छोटा	choṭā	petit, court	adj.
छोड़ना	choṛnā	libérer, abandonner, laisser tomber	vb. tr.
जंगल	jaṅgal	forêt, bois (jungle)	n.m.
जग	jag	monde, univers	n.m.
जगना	jagnā	s'éveiller, être réveillé	vb. int.
जगह	jagah	place, endroit, espace	n.f.
जगाना	jagānā	éveiller, réveiller	vb. tr.
जन	jan	peuple, public, gens	n.m.
जनता	jantā	gens, peuple, public	n.m.
जनमना	janamnā	donner naissance	vb. tr.
जनमपत्री	janma-patrī	horoscope	n.f.
जनाब	janāb	Monsieur	n.m.

जन्म	janma	naissance, vie, origine	n.m.
जन्म देना (को)	janma denā (X ko)	donner naissance (à X)	vb. tr.
जन्म लेना	janma lenā	naître, être né	vb. int.
जन्मदिनि	janmadin	date de naissance, jour anniversaire	n.m.
जन्मना	janmanā	être né	vb. int.
जन्माना	janmānā	donner naissance	vb. tr.
जप	jap	répétition du nom de Dieu (prière)	n.m.
जप करना	jap karnā	prier à voix basse, égrener son chapelet	vb. tr.
जपना	japnā	prier à voix basse, égrener son chapelet	vb. tr.
जब	jab	quand, où	adv.
जब तक... तब तक..	jab tak ... tab tak	jusqu'à ce que ... alors...	loc. adv
जब से... तब से..	jab se tab se	depuis que ... alors	loc. adv
जब....तब....	jab tab....	quand alors ...	loc. adv
ज़बरदस्त	zabardasta	fort, puissant, violent	adj.
ज़बरदस्ती	zabardastī	force, violence	n.f.
ज़बरदस्ती करना (किसी के साथ)	zabardastī karnā (kisī ke sāth)	contraindre, forcer quelqu'un	expr. verb.
ज़बरदस्ती से	zabardastī se	par force, de force	adv.
जमना	jamnā	se figer, se geler, s'établir, être implanté	vb. int.
जमाई	jamāī	beau-fils, gendre	n.m.
जमाना	jamānā	faire geler, faire coaguler	vb. tr.
ज़माना	zamānā	temps, âge, époque, période	n.m.
जमाव	jamāv	solidification, concentration, accumulation	n.m.
ज़मीन	zamīn	terre, sol	n.f.
ज़मीन्दार	zamīndār	propriétaire foncier	n.m.
ज़रा	zarā	un peu	adj.
ज़रा	zarā	un peu, un moment	adv.
ज़रूर	zarūr	certainement, surement	adv.

ज़रूरत	zarūrat	besoin, nécessité	n.f.
ज़रूरत पड़ने पर	zarūrat paṛne par	en cas de besoin	loc. adv.
ज़रूरत होना (किसी को...की)	zarūrat honā (kisī ko...kī)	avoir besoin de ...	vb. tr.
ज़रूरी	zarūrī	important, nécessaire	adj.
जर्मन	jarman	allemand	adj.
जलन	jalan	brûlure, jalousie	n.f.
जलना	jalnā	brûler, être enflammé	vb. int.
जलपान	jalpān	collation, petit déjeuner	n.m.
जलवायु	jalvāyu	climat	n.f.
जलवायु विज्ञान	jalvāyu-vijñān	météorologie	n.m.
जलाना	jalānā	allumer, enflammer, brûler	vb. tr.
जलेबी	jalebī	jalebi	n.f.
जल्दी	jaldī	hâte	n.f.
जल्दी होना (किसी को)	jaldī honā (kisī ko)	être pressé	vb. int.
जवाब	javāb	réponse, réplique	n.m.
जशन	jaśan	fête, festivité, célébration	n.m.
जहाँ	jahā	où	adv.
जहाँ तक.. वहाँ तक..	jahā tak... vahā tak...	jusqu'où.... jusque là....	loc. adv
जहाँ से... वहाँ से...	jahā se... vahā se...	d'où.... de là....	loc. adv
जहाँ... वहाँ...	jahā... vahā...	là où... là....	loc. adv
जाँघ	jāgh	cuisse	n.f.
जाड़ा	jārā	hiver, froid	n.f.
जाती	jāti	caste, sous-caste, race, genre	n.f.
जातविाद	jātivād	castéisme, racisme	n.m.
जादू	jādū	magie, charme, envoutement	n.m.
जादूगर	jādūgar	magicien, sorcier	n.m.
जानना	jānnā	savoir, connaître	vb. tr.

जान-पहचान	jān-pahacān	connaissance, relation	n.f.
जानवर	jānvar	animal, bête	n.m.
जाना	jānā	partir, aller	vb. int.
जायकल	jāykal	muscade (noix de)	n.m.
जी	jī	esprit, cœur	n.m.
जीजा	jījā	beau-frère (mari de la sœur aînée)	n.m.
जीजी	jījī	sœur aînée	n.f.
जीभ	jībh	langue	n.f.
जीरा	zīrā	cumin (en grain)	n.m.
जीव	jīva	créature, être vivant, vie	n.m.
जीवन	jīvan	vie, existence	n.m.
जीवन-चरति	jīvan-carit	biographie	n.m.
जीवन-तल	jīvan-tal	niveau de vie	n.m.
जीवन-स्तर	jīvan-star	niveau de vie	n.m.
जीवति	jīvit	vivant, doué de puissance	adj.
जुआ	juā	jeu de hasard	n.m.
जुदा	judā	séparé, isolé	adj.
जुरमाना	jurmānā	amende, pénalité	n.m.
जुलाहा	julāhā	tisserand	n.m.
जूता	jūtā	chaussure	n.f.
जेठ	jeṭh	beau-frère (frère aîné du mari)	n.m.
जेठानी	jeṭhānī	belle-sœur (femme du frère aîné du mari)	n.f.
जेब	jeb	poche	n.f.
जेवर	zevar	bijou, ornement	n.m.
ज़ोर	zor	force, pouvoir, puissance	n.m.
ज़ोरदार	zordār	fort, puissant, influent	adj.
ज्यादा	zyādā	trop, beaucoup	adj.

झगड़ना	jhagaṛnā	se quereller, avoir une altercation	vb. int.
झगड़ा	jhagṛā	querelle, dispute	n.m.
झगड़ा खड़ा करना	jhagṛā khaṛā karnā	soulever une dispute	vb. tr.
झटका	jhaṭkā	secousse, choc, embardée	n.m.
झल्लाना	jhallaṇā	être irrité, être en colère, gronder	vb. int.
झाँकना	jhāṅknā	jeter un coup d'œil, épier	vb. tr.
झाँकी	jhāṅkī	coup d'œil furtif	n.f.
झाड़ू	jhāṛū	balai	n.m.
झींगा	jhīṅgā	criquet, grillon (crevette ?)	n.f.
झूमना	jhūmnā	se balancer, tituber	vb. int.
झूलना	jhūlnā	balancer, osciller, être en suspens	vb. tr.
झोला	jholā	sac	n.m.
टपक जाना	ṭapak jānā	arriver à l'improviste	vb. int.
टपक पड़ना	ṭapak paṛnā	arriver à l'improviste	vb. int.
टपकना	ṭapaknā	couler, goutter, fuir, tomber (fruits)	vb. int.
टमाटर	ṭamāṭar	tomate	n.m.
टाँग	ṭāṅg	jambe	n.f.
टूटना	ṭūṭnā	se casser, se briser, être cassé	vb. int.
टोकरा	ṭokrā	grand panier	n.m.
टोकरी	ṭokrī	petit panier	n.f.
ठंड	ṭhaṇḍa	froid	n.f.
ठंड पड़ना	ṭhaṇḍa paṛnā	faire froid	vb. int.
ठंड लगना (किसी को)	ṭhaṇḍa lagnā (kisī ko)	avoir froid	vb. int.
ठंडा	ṭhaṇḍā	froid	adj.
ठहरना	ṭhaharnā	s'arrêter (quelque part), séjourner, rester	vb. int.
ठुड्डी	ṭhuddī	menton	n.f.
डट्टा	ḍaṭṭā	bouchon	n.m.

डब्बा	ḍabbā	boîte, tiroir, wagon (de train)	n.m.
डर	ḍar	peur, crainte	n.m.
डर लगना (किसी को □ से)	ḍar lagnā (kisi ko X se)	avoir peur de X, être effrayé par X	vb. int.
डरना (□ से)	ḍarnā (X se)	avoir peur de X, être effrayé par X	vb. int.
डरपोक	ḍarpok	timide, lâche, poltron, peureux	adj.
डराना	ḍarānā	effrayer, itimider	vb. tr.
डाकिया	ḍākiyā	facteur	n.m.
डालना	ḍālnā	verser, pousser, porter ...	vb. tr.
डूबना	ḍūbnā	être noyé, se noyer, plonger	vb. int.
डूबाना	ḍūbānā	noyer, immerger, plonger dans	vb. tr.
डेढ़	ḍeṛh	un et demi	adj.
ढकना	ḍhagnā	couvrir, cacher, voiler, dissimuler	vb. tr.
ढक्कन	ḍhakkan	couvercle	n.m.
ढाई	ḍhāī	deux et demi	adj.
ढाबा	ḍhābā	restaurant de bord de route	n.m.
ढीला	ḍhīlā	lâche, relâché, mou, flottant	adj.
ढेर	ḍher	tas, pile, amoncellement, amas	n.m.
ढेर	ḍher	abondant	adj.
ढेर करना	ḍher karnā	entasser, amasser, porter un coup, tuer	vb. tr.
ढेर सा	ḍher sā	quantité de, tas de	adj.
ढेर सा	ḍher sā	quantité de, tas de	n.m.
ढेर सारे	ḍher sāre	quantité de, tas de	adj.
ढेर होना	ḍher honā	être en ruines, s'écrouler, mourir	vb. int.
तंग	taṅg	fatigué, soucieux, serré, étroit	adj.
तंग आना	taṅg ānā	être fatigué, être découragé	vb. int.
तंग करना	taṅg karnā	affliger, embêter, agacer	vb. tr.
तंबाकू	tambākū	tabac	n.m.

तक	tak	même, jusqu'à	adv.
तकलीफ	taqlif	peine, affliction, maladie	n.f.
तकिया	takiyā	oreiller, traversin	n.m.
तत्काल	tatkāl	tout de suite, sur le champ	adv.
तनखाह	tankhāha	salaire, paie	n.f.
तपाक से	tapāk se	chaleureusement, à bras ouverts	adv.
तब	tab	alors, après, en conséquence	adv.
तबाह	tabāha	ruiné, détruit	adj.
तबाह करना	tabāha karnā	détruire	vb. tr.
तबाही	tabāhī	destruction, ruine, perte, désastre	n.f.
तबीयत	tabīyat	humeur, santé, tempérament	n.f.
तमाशा	tamāsā	spectacle, divertissement	n.m.
तमीज़	tamīz	savoir-vivre	n.f.
तरक	tarq	direction, coté	n.f.
तरबूज़	tarbūz	pastèque	n.m.
तरह	tarah	sorte, espèce, genre, méthode, manière	n.f.
तराजू	tarāzū	balance, bascule	n.f.
तरीका	tarīqā	méthode, manière, moyen	n.m.
तल	tal	surface, plancher, sol, fond	n.m.
तलाक	talāq	divorce	n.m.
तलाकशुदा	talāqsudā	divorcé	adj.
तशरीफ	taśrīf	siège, honneur	n.f.
तस्वीर	tasvīr	image, tableau, photo	n.m.
ताई	tāī	tante (épouse du frère aîné du père)	n.f.
ताऊ	tāū	oncle (frère aîné du père)	n.m.
ताक	tāk	regard fixe	n.f.
ताक रखना (किसी पर)	tāk rakhnā (kisī par)	surveiller quelqu'un	vb. tr.

ताक़त	tāqat	pouvoir, force, puissance	n.f.
ताक़तवार	tāqatvār	puissant, fort	adj.
ताक़ना	tāknā	regarder fixement, guetter	vb. tr.
ताक़ी	tāki	pour que, afin que	adv.
ताज़ा	tāzā	frais	adj.
तारा	tārā	étoile	n.m.
ताल	tāl	mesure, rythme, cycle ryth.	n.m.
ताला	tālā	serrure, cadenas	n.m.
तालाब	tālāb	étang, lac, mare	n.m.
ताली	tālī	clef	n.f.
ताश	tāś	carte, jeu de carte	n.m.
ततिली	titlī	papillon	n.f.
तरिपन	tirpan	cinquante trois	nombre 053
तरिसठ	tirsatḥ	soixante trois	nombre 063
तरिनवे	tirānave	quatre-vingt treize	nombre 093
तरिसी	tirāsī	quatre-vingt trois	nombre 083
तलि	til	sésame, grain de beauté, pupille	n.m.
तहित्तर	tihattar	soixante treize	nombre 073
तीन	tīn	trois	nombre 003
तीनों	tīnō	tous les trois	pron.
तीस	tīs	trente	nombre 030
तीसरा	03 tīsṛā	troisième	nombre ord.
तीसवाँ	30 tīsvā	trentième	nombre ord.
तुड़वाना	tuṛvānā	faire casser, faire démolir	vb. tr.
तुम	tum	tu / nous (égal, pluriel)	pron. pers.
तुरन्त	turanta	immédiatement, rapidement	adv.
तू	tū	tu (familier, tjrs singulier)	pron. pers.

तूफान	tūfān	tempête	n.m.
तूली	tūlī	pinceau, coton	n.f.
तेईस	teīs	vingt trois	nombre 023
तेज़	tez	pointu, perçant, mordant, vif	adj.
तेजपत्ता	tejpattā	laurier (feuille de)	n.f.
तेरह	terah	treize	nombre 013
तैंतालीस	taintālīs	quarante trois	nombre 043
तैंतीस	taintīs	trente trois	nombre 033
तैयार	taiyār	prêt, favorable, robuste, gros, gras	adj.
तैयार करना	taiyār karnā	rendre prêt, préparer	vb. tr.
तैयार होना	taiyār honā	être prêt, se préparer	vb. int.
तैयारी	taiyārī	préparatifs	n.f.
तोड़ना	toṛnā	casser	vb. tr.
तोता	totā	perroquet	n.m.
तौर	taur	méthode, manière, moyen	n.m.
तौलिया	tauliyā	serviette de toilette	n.m.
त्यौहार	tyauhār	fête, festivité	n.m.
त्यौहार मनाना	tyauhār manānā	célébrer une fête	vb. tr.
थक जाना	thak jānā	être fatigué, en avoir assez	vb. int.
थकना	thaknā	être fatigué, las	vb. int.
थकान	thakān	fatigue	n.f.
थकाना	thakānā	fatiguer	vb. tr.
थाली	thālī	plat, plateau	n.f.
थोड़ा	thoṛā	un peu	adj.
थोड़ा	thoṛā	un peu	adv.
दक्ष	dakṣa	habile, efficace, expert	adj.
दबना	dabnā	être pressé, écrasé, opprimé	vb. int.

दबाना	dabānā	comprimer, écraser, opprimer	vb. tr.
दबाव	dabāv	pression, compression, oppression	n.m.
दया	dayā	pitié, compassion, clémence	n.f.
दया आना (किसी को...पर)	dayā ānā (kisī ko... par)	avoir de la pitié pour...	vb. int.
दरबार	darbār	cour (d'un roi, d'une personnalité)	n.m.
दरवाज़ा	darvāzā	porte	n.m.
दर्ज़ी	darjī	tailleur, couturier	n.m.
दर्द	darda	douleur, souffrance, peine	n.m.
दर्द होना (किसी को... में)	dadar honā (kisī ko... mẽ)	avoir mal à	vb. int.
दर्शक	darśak	spectateur, observateur	n.m.
दर्शन	darśan	vue, vision, rencontre	n.m.
दल	dal	parti (politique), groupe, pétale	n.m.
दल-दल	dal-dal	marais, marécage	n.m.
दलित	dalit	classe exploitée, opprimée (intouchable)	n.m.
दवा	davā	médicament, soins médic., remède	n.f.
दवाख़ाना	davākhānā	pharmacie, dispensaire	n.m.
दस	das	dix	nombre 010
दसवाँ	10 dasvā	dixième	nombre ord.
दही	dahī	yoghourt, lait caillé	n.m.
दहेज़	dahez	dot	n.m.
दाँत	dānt	dent	n.m.
दाई	dāi	sage femme, nourrice	n.f.
दाढ़ी	dārhī	barbe	n.f.
दाता	dātā	donateur	n.m.
दादा	dādā	grand-père paternel	n.m.
दादी	dādī	grand-mère paternelle	n.f.
दान	dān	don, donation, offrande	n.m.

दामाद	dāmād	beau-fils, gendre	n.m.
दाल	dāl	lentille	n.f.
दालचीनी	dālcīnī	cannelle	n.f.
दावत	dāvat	festin, grand-repas	n.m.
दास	dās	serviteur, esclave	n.m.
दखिना	dikhnā	apparaître	vb. int.
दखिलवाना	dikhalvānā	faire montrer, faire exposer	vb. tr.
दखिलाना	dikhlānā	montrer, présenter, exposer	vb. tr.
दखाई	dikhāī	vue, vision	n.f.
दखाई देना (किसी को)	dikhāī denā (kisī ko...)	apercevoir (pas de erg.)	vb. tr.
दखाना	dikhānā	montrer, présenter, exposer	vb. tr.
दनि	din	jour, journée	n.m.
दनि-ब-दनि	din-ba-din	jour après jour, de jour en jour	adv. tps
दलि	dil	cœur	n.m.
दलिचस्प	dilcaspa	intéressant, divertissant	adj.
दलिचस्पी	dilcaspī	intérêt	n.f.
दलिचस्पी होना (किसी को..में)	dilcaspī honā (kisī ko... mē)	s'intéresser à, avoir de l'intérêt pour	vb. tr.
दीदी	dīdī	sœur aînée	n.f.
दीपक	dīpak	lampe	n.m.
दीवार	dīvār	mur	n.f.
दुकान	dukān	boutique, commerce	n.f.
दुकानदार	dukāndār	commerçant, marchand	n.m.
दुख	dukh	souffrance, malheur, chagrin	n.m.
दुखी	dukhī	malheureux, triste	adj.
दुनिया	duniyā	monde, univers, terre, gens, peuple	n.f.
दुम	dum	queue, extrémité, fin	n.f.
दुल्हन	dulhan	jeune mariée	n.f.

दूध	dūdh	lait	n.m.
दूधिया	dūdhiyā	mélangé avec du lait, laiteux	adj.
दूर	dūr	loin	adv
दूलहा	dulhā	jeune marié	n.m.
दूसरा	dūsra	deuxième, suivant, autre	adj.
दूसरा	02 dūsra	deuxième	nombre ord.
दूसरा	dūsra	deuxième, suivant, autre	pron.
दृश्य	driśya	paysage, vue, spectacle	n.m.
दृष्टि	driṣṭi	vue, vision, regard, perception	n.f.
दृष्टि डालना	driṣṭi ḍālnā	jeter un coup d'œil	vb. tr.
दृष्टि में आना	driṣṭi mé ānā	être en vue, apparaître	vb. int.
दृष्टि से (इस)	driṣṭi se (is)	sous cet angle, de ce point de vue	adv.
दृष्टि-कोण	driṣṭi-koṅ	point de vue, opinion	n.m.
देखना	dekhnā	voir, regarder	vb. tr.
देना	denā (irrégulier)	donner	vb. tr.
देर	der	durée, délai, retard, moment	n.f.
देर आना	der ānā	arriver en retard	vb. int.
देर करना	der karnā	retarder, tarder	vb. tr.
देर होना (किसी को)	der honā (kisī ko)	être en retard	vb. int.
देर-सवेर	der-saver	tôt ou tard	adv. tps
देव	dev	dieu, divinité	n.m.
देवता	devtā	dieu, divinité	n.m.
देवर	devar	beau-frère (frère cadet du mari)	n.m.
देवरानी	devrānī	belle-sœur (femme du frère cadet du mari)	n.f.
देवा	devā	dieu, divinité	n.m.
देवालय	devālaya	temple, séjour des dieux	n.m.
देश	deś	pays, terre natale	n.m.

देशी	deśī	local, indigène	adj.
देह	deha	corps, personne physique	n.f.
देहांत	dehānta	décès, mort	n.m.
दैनिकि	dainik	quotidien	adj.
दैनिकि	dainik	quotidien	n.m.
दैविकि	daivik	divin	adj.
दो	do	deux	nombre 002
दोनों	donō	tous les deux	pron.
दोपहर	dopahar	midi (après-midi)	n.f.
दोष	doṣ	faute, tord, défaut, vice	n.m.
दोहरना	doharnā	être répété, doublé, plié en deux	vb. int.
दोहरा (दुहरा)	doharā (duharā)	double, plié en deux	adj.
दोहरा (दुहरा)	doharā (duharā)	double	n.m.
दोहराई	doharāi	répétition, révision, réduplication	n.f.
दोहराना (दुहराना)	doharānā (duharānā)	répéter, doubler, dupliquer, réviser	vb. tr.
दौलत	daulat	richesse, propriété	n.f.
द्वार	dvār	porte, portail, sortie	n.m.
द्वारपाल	dvārpāl	gardien, concierge, huissier	n.m.
धंधा	dhandhā	occupation, travail, emploi	n.m.
धक्का	dhakkā	poussée, choc, coup, bousculade	n.m.
धन	dhan	argent, biens, richesse	n.m.
धनवान	dhanvān	riche, fortuné	adj.
धनहीन	dhanhīn	pauvre, indigent	adj.
धनहीन	dhanhīn	homme pauvre	n.m.
धनयिा	dhaniyā	coriandre	n.m.
धनी	dhanī	riche, opulent	adj.
धनी	dhanī	riche, maître, propriétaire	n.m.

धमकी	dhamkī	menace	n.f.
धरती	dhartī	la terre, le monde	n.f.
धीरे	dhīre	lentement, doucement	adv.
धुन	dhun	assiduité, marotte, forme musicale	n.f.
धुलना	dhulnā	être lavé, être propre, être réparé	vb. int.
धुलवाना	dhulvānā	faire laver, faire nettoyer	vb. tr.
धूप	dhūp	chaleur, éclat du soleil	n.f.
धूम्रपान	dhūmrāpān	action de fumer du tabac	n.m.
धूल	dhūl	poussière	n.f.
धोखा	dhokhā	tromperie, ruse, illusion, escroquerie	n.m.
धोखेबाज़	dhokhebāz	trompeur, fourbe	adj.
धोना	dhonā	laver, nettoyer, blanchir, effacer	vb. tr.
धोबन	dhoban	blanchisseuse	n.f.
धोबी	dhobī	blanchisseur	n.m.
ध्यान	dhyān	attention, concentration, méditation	n.m.
न जाने	na jāne	"dieu sait",	adv.
नगर	nagar	ville	n.m.
नचाना	nacānā	faire danser	vb. tr.
नज़दीक	nazdīk	près	adv.
नज़र	nazar	vue, vision, regard	n.f.
नज़ारा	nazārā	paysage, vue	n.m.
नतीजा	natījā	conséquence, résultat, conclusion	n.m.
ननद	nanad	belle-sœur (sœur du mari)	n.f.
ननदोई	nanadoī	beau-frère (mari de la sœur du mari)	n.m.
नफरत	nafrat	haine, mépris	n.f.
नफरत होना (किसी को...से)	nafrat honā (kisī ko... se)	éprouver de la haine pour ...	vb. tr.
नफ़ीस	naḥīs	fin, excellent, exquis	adj.

नब्बे	nabbe	quatre-vingt dix	nombre 090
नम	nam	humide, mouillé	adj.
नमक	namak	sel	n.m.
नमस्ते	namaste	bonjour (salutation)	n.f.
नमी	namī	humidité, moiteur	n.f.
नया	nayā	neuf, nouveau, moderne	adj.
नवाब	navāb	nabab, prince, personne vivant dans le luxe	n.m.
नवासी	navāsī	quatre-vingt neuf	nombre 089
नशा	naśā	intoxication, ivresse	n.m.
नशेबाज़	naśebāz	drogué, alcoolique	adj.
नहाना	nahānā	se baigner, prendre un bain	vb. int.
नहीं	nahī	non, ne pas	adv.
नाई	nāī	barbier, coiffeur, caste des barbiers	n.m.
नाक	nāk	nez	n.f.
नाकाबलि	nāqābil	incapable, incompetent	adj.
नाखुदा	nākhudā	athée	adj.
नाखुश	nākhuš	malheureux, triste, mécontent, tracassé	adj.
नाखून	nākhūn	ongle	n.m.
नाच	nāc	danse	n.m.
नाचना	nācnā	danser	vb. int.
नाटक	nāṭak	drame, pièce de théâtre	n.m.
नाटककार	nāṭakkār	auteur dramatique, dramaturge	n. m.
नातनि	nātin	petite-fille (fille de la fille)	n.f.
नाती	nātī	petit-fils (fils de la fille)	n.m.
नादान	nādān	naïf, ignorant	adj.
नादानी	nādānī	innocence, ignorance	n.f.
नाना	nānā	grand-père maternel	n.m.

नानी	nānī	grand-mère maternelle	n.f.
नापसंद	nāpasand	déplaisant	adj.
नाम	nām	nom	n.m.
नामंजूरी	nāmañzūrī	rejet, refus, non acceptation	n.f.
नामक	nāmak	nommé, appelé, portant le nom de	adj.
नामस्कार	namaskār	bonjour (salutation)	n.m.
नामालूम	nāmālūm	inconnu, non-identifié	adj.
नामी	nāmī	renommé, connu	adj.
नामुमकिन	nāmumkin	impossible	adj.
नायक	nāyak	chef, guide, héros	n.m.
नायिका	nāyikā	héroïne, entremetteuse	n.f.
नारंगी	nāraṅgī	orange (couleur)	adj.
नारंगी	nāraṅgī	orange	n.f.
नाराज़	nārāz	en colère, enragé, mécontent	adj.
नाराज़गी	nārāzgi	colère, rage, mécontentement	n.f.
नारयिल	nāriyal	noix de coco	n.m.
नालायक	nālāyaq	incompétent, indigne, vaurien	adj.
नाश	nās	destruction, ruine, dévastation	n.m.
नाश करना	nās karnā	détruire	vb. tr.
नाशक	nāśak	destructeur, dévastateur	adj.
नाशकारी	nāśakārī	destructeur, dévastateur	adj.
नाशपाती	nāśpātī	poire	n.f.
नाशवाद	nāśvād	nihilisme	n.m.
नाशति	nāśit	détruit	adj.
ना-समझ	nā-samajh	idiot, imbécile, stupide, sot	adj.
ना-समझी	nā-samajhī	inintelligence, stupidité, idiotie	n.f.
नकिलना	nikalnā	sortir, émerger, apparaître	vb. int.

नकालना	nikālnā	faire sortir	vb. tr.
नधिन	nidhan	destruction, fin, mort, décès	n.m.
नन्यानवे	ninyānave	quatre-vingt dix-neuf	nombre 099
नपुण	nipuṇ	adroit, habile, doué, efficace	adj.
नपुणता	nipuṇtā	dextérité, habileté	n.f.
नयिम	niyam	règle, loi, principe, discipline	n.m.
नरिाकार	nirākār	sans forme, informe, incorporel (dieu)	adj.
नरिाश	nirās	désespéré, découragé, frustré	adj.
नरिाशा	nirāsā	désespoir, découragement, abattement	n.f.
नरिीव	nirjīva	sans vie, inanimé, mort	adj.
नरिणय	nirṇaya	décision, jugement, conclusion	n.m.
नरिदोष	nirdoṣ	innocent, sans défaut	adj.
नरिधन	nirdhan	désargenté, pauvre	adj.
नरिधन	nirdhan	homme désargenté, pauvre	n.m.
नरिधनता	nirdhantā	pauvreté	n.f.
नरिमल	nirmal	pur, propre, clair, non souillé	adj.
नरिा	niśā	nuit	n.f.
नरिचल	niścal	immobile, stable, immuable, tranquille	adj.
नरिचिति	niścinta	insouciant, nonchalant, indifférent	adj.
नरिपक्ष	niṣpakṣa	impartial, sans parti-pris, objectif	adj.
नरिपाप	niṣpāp	innocent	adj.
नरिसंकोच	nissaṅkoc	sans hésitation	adj.
नरिसंकोच	nissaṅkoc	sans hésitation	adv.
नीद	nīnd	sommeil, assoupissement	n.f.
नीबू	nīmbū	citron	n.m.
नीचा	nīcā	bas	adj.
नीचे	nīce	en bas, en dessous	adv.

नीरस	nīras	sans jus, fade, insipide, ininteressant	adj.
नीला	nīlā	bleu	adj.
नुक्स	nuqsa	défaut, défectuosité, déficience	n.m.
नेक	nek	bon, vertueux	adj.
नेकी	nekī	bonté, piété, vertu	n.f.
नेता	netā	chef, leader, pionnier	n.m.
नैशकि	naiśik	nocturne	adj.
नौ	nau	neuf	nombre 009
नौकर	naukar	serviteur, domestique, employé	n.m.
नौवाँ	09 nauvā	neuvième	nombre ord.
पंखा	pañkhā	ventilateur, éventail	n.m.
पंडति	pañdit	brahmane, savant, érudit	n.m.
पंद्रह	pandrah	quinze	nombre 015
पकड़ना	pakarṇā	prendre, saisir, attraper	vb. tr.
पकड़ाना	pakṛānā	faire attraper, livrer	vb. tr.
पकना	paknā	murir, parfaire, être cuit	vb. int.
पकाना	pakānā	cuire, faire murir	vb. tr.
पक्का	pakkā	mur, cuit, ferme, solide	adj.
पक्ष	pakṣa	coté, flanc, aile	n.m.
पक्षी	pakṣī	oiseau	n.f.
पचपन	pacpan	cinquante cinq	nombre 055
पचहत्तर	pacahattar	soixante quinze	nombre 075
पचानवे	pacānave	quatre-vingt quinze	nombre 095
पचास	pacās	cinquante	nombre 050
पचासी	pacāsī	quatre-vingt cinq	nombre 085
पच्चीस	paccīs	vingt cinq	nombre 025
पटकना	paṭaknā	jeter par terre	vb. tr.

पड़ना	paṛnā	être déposé, être tombé, arriver	vb. int.
पड़ोस	paṛos	voisinage, proximité	n.m.
पड़ोसनि	paṛosin	voisine	n.f.
पड़ोसी	paṛosī	voisin	n.m.
पढ़ना	paṛhnā	lire, étudier	vb. tr.
पढ़ाई	paṛhāī	études, éducation	n.f.
पढ़ाना	paṛhānā	enseigner, éduquer, instruire	vb. tr.
पतझड़	patjhaṛ	automne, chute des feuilles	n.m.
पतला	patlā	mince, ténu, fin, étroit	adj.
पता	patā	information, connaissance	n.m.
पता होना (किसी को)	patā honā (kisī ko)	être connu, informé, savoir	vb. int.
पती	patī	mari, époux	n.m.
पतीला	patīlā	casserole	n.m.
पत्थर	patthar	Pierre, personne sans cœur	n.m.
पत्नी	patnī	femme, épouse	n.f.
पत्र	patra	lettre, feuille, papier, message	n.m.
पत्रकार	patrakār	journaliste	n.m.
पत्रिका	patrikā	magazine, revue	n. f.
पद	pad	ped, pas, poste (administratif), rang	n.m.
पधारना	padhārnā	entrer, s'avancer (respectueux)	vb. int.
पनीर	panīr	fromage	n.m.
पपीटा	papīṭā	papaye	n.m.
पर	par	sur	post pos.
परंपरा	paramparā	tradition	n.f.
परंपरकि	paramparik	traditionnel	adj.
परदा	pardā	rideau, voile, écran	n.m.
परसों	parsō	après demain, avant-hier	adv.tps

परिक्रमा	parikramā	circumambulation, révolution (tour)	n.f.
परचय	paricaya	introduction, connaissance	n.m.
परिणाम	pariṇām	conséquence, résultat, conclusion	n.m.
परनिगर	parinagar	banlieue	n.m.
परिमाप	parimāp	périmètre	n.f.
परिस्थिति	paristhiti	circonstances	n.f.
परीक्षण	parīkṣaṇ	examen, test, essai	n.m.
परीक्षण करना	parīkṣaṇ karnā	tester, examiner, essayer	vb. tr.
परीक्षा	parīkṣā	examen, test, essai	n.m.
परीक्षा लेना	parīkṣā lenā	tester, examiner, essayer	vb. tr.
परोपकार	paropkār	bienveillance, altruisme, charité	n.m.
पर्यटक	paryaṭak	touriste	n.m.
पलंग	palaṅg	lit	n.m.
पलक	palak	paupière	n.f.
पसंद	pasand	apprécié, approuvé, choisi	adj.
पसंद	pasand	choix, préférence, goût	n. f.
पसंद आना (किसी को)	pasand ānā	aimer bien, apprécier	vb. tr.
पसंद करना	pasand karnā	choisir, préférer, aimer	vb. tr.
पसंदीदा	pasandīdā	aimé, choisi, plaisant	adj.
पहचान	pahacān	connaissance, identification	n.f.
पहचान करना (□ की)	pahacān karnā (X kī)	reconnaître, identifier X	vb. tr.
पहचानना (□ को)	pahacānnā (X ko)	reconnaître, identifier X	vb. tr.
पहनना	pahannā	porter des vêtements (bijoux)	vb. tr.
पहला	01 pahalā	premier	nombre ord.
पहला	pahalā	premier, principal, antérieur	adj.
पहले	pahale	d'abord, auparavant, au début, avant	adv. tps.
पहुँचना	pahūcñā	arriver, accéder, atteindre	vb. int.

पहुँचाना	pahūcānā	faire arriver, accompagner	vb. tr.
पाँच	pānc	cinq	nombre 005
पाँचवाँ	05 pāchvā	cinquième	nombre ord.
पाँव	pāva	pied, jambe, support	n.m.
पान	pān	bétel, feuille de bétel	n.m.
पाप	pāp	mauvaise action, péché	n.m.
पारिवारिक	pārivārik	familial	adj.
पारिवारिक संबंध	pārivārik sambandha	relations familiales	n.m.
पार्टी	pārṭī	parti (politique)	n.m.
पालक	pālak	épinard	n.m.
पास	pās	près	adv.
पछिला	pichlā	précédent, dernier	adj.
पटिना	piṭnā	être battu	vb. int.
पति	pitā	père	n.m.
पलिवाना	pilvānā	faire faire boire	vb. tr.
पलाना	pilānā	faire boire	vb. tr.
पसिसू	pissū	puce	n.m.
पीछे	pīche	derrière	adv.
पीटना	pīṭnā	battre, frapper, punir, vaincre	vb. tr.
पीठ	pīṭh	dos, épine dorsale	n.f.
पीड़ा	pīṛā	douleur, angoisse, souffrance	n.f.
पीना	pīnā	boire	vb. tr.
पीला	pīlā	jaune, pâle	adj.
पुदीना	pudīnā	menthe	n.m.
पुराना	purānā	vieux, ancien	adj.
पुरुष	puruṣ	homme, mari	n.m.
पुस्तकालय	pustakālaya	bibliothèque	n.m.

पूँजी	pūjī	capital, richesse, investissement	n.f.
पूँजीवाद	pūjīvād	capitalisme	n.m.
पूँजीवादी	pūjīvādī	capitaliste	adj.
पूँजीवादी	pūjīvādī	capitaliste	n.m.
पूछना	pūchnā	demander, enquêter, interroger	vb. int.
पूरा	pūrā	complet, total, entier	adj.
पृथ्वी	prithvī	terre, sol	n.f.
पेट	peṭ	ventre, estomac, utérus	n.m.
पेशा	peśā	profession, métier	n.m.
पैंतालीस	paintālīs	quarante cinq	nombre 045
पैंतीस	paintīs	trente cinq	nombre 035
पैंसठ	painsaṭh	soixante cinq	nombre 065
पैदल	paidal	piéton, à pied	adj.
पैदल	paidal	à pied	adv.
पैदल	paidal	piéton, fantassin	n.m.
पैर	pair	pied	n.m.
पैसा	paisā	argent, centimes de roupie	n.m.
पोता	potā	petit-fils (fils du fils)	n.m.
पोती	potī	petite-fille (fille du fils)	n.f.
पौना	paunā	trois-quart (moins le quart)	adj.
प्याज़	pyāz	oignon	n.f.
प्यारा	pyārā	aimé, cher, joli, agréable	adj.
प्यारा	pyārā	aimé, cher	n.m.
प्यास	pyās	soif	n.f.
प्यास लगना (किसी को)	pyās lagnā (kisī ko)	avoir soif	vb. int.
प्यासा	pyāsā	assoiffé	adj.
प्रकार	prakār	sorte, espèce, genre	n.m.

प्रगती	pragati	progrès, développement	n.f.
प्रतिकूल	pratikūl	contraire, opposé, adverse, défavorable	adj.
प्रतिक्रिया	pratikriyā	réaction	n.f.
प्रतिक्षा	pratīkṣā	attente	n.f.
प्रतिदान	pratidān	récompense, remboursement	n.m.
प्रतिपक्ष	pratipakṣa	opposition, camp opposé	n.m.
प्रतिभा	pratibhā	lumière, génie	n.f.
प्रतिहिंसा	pratihimsā	vengeance	n.f.
प्रतीक्षा करना (की)	pratīkṣā karnā (kī)	attendre	vb. tr.
प्रथा	prathā	coutume, tradition, pratique	n.f.
प्रबंध	prabandha	arangement, disposition, gestion	n.m.
प्रबंध करना (का)	prabandha karnā (kā)	arranger, organiser	vb. tr.
प्रबंध होना	prabandha honā	être prévu, arrangé, organisé	vb. int.
प्रबंधक	prabandhak	organisateur, manager	n.m.
प्रबंधक	prabandhak	organisateur, manager	adj.
प्रभाव	prabhāva	influence, impact, impression	n.m.
प्रभाव डालना (किसी पर)	prabhāv ḍālnā (kisī par)	influencer, impressionner X	vb. tr.
प्रभाव में आना (किसी के)	prabhāv mé ānā (kisī ke)	être influencé par, sous l'influence de	vb. int.
प्रभावशाली	prabhāvśālī	influent, impressionnant, efficace	adj.
प्रभावहीन	prabhāvhon	sans effet, sans influence	adj.
प्रभावति (से)	prabhāvit (se)	influencé (par)	adj.
प्रयत्न	prayatna	effort, tentative	n.m.
प्रयास	prayās	effort, tentative	n.m.
प्रयास करना	prayās karnā	essayer, s'efforcer	vb. tr.
प्रयोग करना	prayog karnā	utiliser, faire usage	vb. tr.
प्रसन्न	prasanna	heureux, content	adv.
प्रसन्नता	prasannatā	joie, bonheur	n.f.

प्रसिद्ध	prasiddha	fameux, réputé, renommé	adj.
फटाफटाया	phaṭā-phaṭāyā	déchiré, vieux	adj.
फरमाना	farmānā	parler, dire, exprimer	vb. tr.
फर्श	fars	plancher, sol	n.m.
फल	phal	fruit	n.m.
फलाँ	falā	un tel, un certain	adv.
फलाना	falānā	un tel, un certain	adv.
फाँदना	phādnā	sauter, bondir	vb. tr.
फायदा	fāydā	profit, gain, bénéfice, avantage, intérêt	n.m.
फकिर् (फकिर)	fiqra (fikar)	anxiété, souci, soin	n.f.
फरि	phir	puis, ensuite, à l'avenir	adv. tps
फरिना	phirnā	tourner, retourner, errer	vb. int.
फलिहाल	filhāl	pour l'instant, présentement,	adv. tps
फसिलना	phisalnā	glisser, patiner	vb. int.
फुर्सत	fursat	loisir, répis, temps libre	n.f.
फूफा	phūphā	oncle (mari de la sœur du père)	n.m.
फूफी	phūphī	tante (sœur du père)	n.f.
फूल गोभी	phūl-gobhī	chou-fleur	n.f.
फेंकना	pheṅknā	jeter, lancer	vb. tr.
फेफड़ा	phephṛā	poumon	n.m.
फैलाना	phailānā	répondre, propager, rendre public	vb. tr.
फैसला	faislā	décision, jugement, accord, résolution	n.m.
फौरन	fauran	immédiatement, tout de suite	adv.
फ्रांसीसी	frānsīsī	français, française	adj.
फ्रांसीसी	frānsīsī	le français (la langue)	n.f.
फ्रांसीसी	frānsīsī	français (habitant de la France)	n.m.
बंद	band	fermé, cloturé, arrêté, discontinu	adj.

बंद करना	band karnā	cesser, interrompre, fermer	vb. tr.
बंद हो जाना	band ho jānā	être arrêté, être interrompu	vb. int.
बंदर	bandar	singe	n.m.
बंदूक	bandūk	fusil	n.f.
बंधु	bandhu	frère, parent, ami	n.m.
बकरा	bakrā	bouc	n.m.
बकरी	bakrī	chèvre	n.f.
बगीचा	bagīcā	jardin, petit parc	n.m.
बचना	bacnā	échapper, être sauvé, être économisé	vb. int.
बचपन	bacpan	enfance	n.m.
बचाना	bacānā	sauver (qqun), économiser	vb. tr.
बचाव	bacāv	protection, défense, sécurité	n.m.
बच्चा	baccā	enfant (garçon)	n.m.
बच्ची	baccī	petite fille	n.f.
बजना	bajnā	sonner, résonner	vb. int.
बजाना	bajānā	faire sonner, jouer (d'un instrument)	vb. tr.
बड़ा	baṛā	grand, aîné	adj.
बड़ा	baṛā	beaucoup, très	adv.
बढ़ई	baṛhī	menuisier	n.m.
बढ़ना	baṛhnā	augmenter, croître, progresser	vb. int.
बढ़ाना	baṛhānā	augmenter, faire croître	vb. tr.
बढ़ाव	baṛhāv	augmentation	n.m.
बढ़ावा	baṛhāvā	encouragement, incitation	n.m.
बढ़िया	baṛhiyā	excellent parfait, de bonne qualité	adj.
बतलाना	batlānā	faire savoir, indiquer	vb. tr.
बत्तीस	battīs	trente deux	nombre 032
बदकस्मित	badqīsmat	infortuné, malchanceux	adj.

बदकस्मिती	badqismatī	malchance	n.f.
बदतमीज़	badtamīz	impoli, insolent	adj.
बदतमीज़ी	badtamīzī	impolitesse, insolence	n.f.
बदन	badan	corps	n.m.
बदनाम	badnām	mal famé, de mauvaise réputation	adj.
बदनामी	badnāmī	mauvaise réputation	n.f.
बदबू	badbū	mauvaise odeur	n.f.
बदमाश	badmāś	méchant, mauvais, vilain	adj.
बदमाशी	badmāśī	méchanceté, malice	n.f.
बदमज़िज़	badmizāj	qui a mauvais caractère	adj.
बदसूरत	badsūrat	laid	adj.
बदसूरती	badsūratī	laideur	n.f.
बदहाल	badhāl	en mauvais état	adj.
बदाम	badām	amande	n.m.
बधाई	badhāī	félicitation	n.f.
बनना	bananā	être fait, être préparé	vb. int.
बनवाना	banvānā	faire préparer, faire construire	vb. tr.
बनाना	banānā	faire, préparer, construire	vb. tr.
बयालीस	bayālīs	quarante deux	nombre 042
बयासी	bayāsī	quatre-vingt deux	nombre 082
बरफ	baraf	glace, neige	n.f.
बरस	baras	an, année	n.m.
बर्फ	barfa	glacé, froid	adj.
बर्फ	barfa	glace, neige,	n.f.
बल	bal	force, pouvoir, énergie, armée	n.m.
बलवान	balvān	puissant, fort, vigoureux	adj.
बवंडर	bavaṇḍar	cyclone, typhon	n.m.

बहत्तर	bahattar	soixante douze	nombre 072
बहन	bahan	sœur	n.f.
बहनोई	bahanoī	beau-frère	n.m.
बहरा	baharā	sourd	adj.
बहरा	baharā	sourd	n.m.
बहस	bahas	discussion, débat	n.f.
बहार	bahār	printemps, épanouissement	n.f.
बहिष्कार	bahiṣkār	excommunication, boycott	n.m.
बहुत	bahut	beaucoup, très, plusieurs	adj.
बहुत	bahut	beaucoup, très, plusieurs	adv.
बहुमत	bahumat	majorité	n.m.
बहू	bahū	belle-fille, brue	n.f.
बाँस	bās	bambou, pôle	n.m.
बाँह	bāha	bras, manche (vêtement)	n.f.
बाईस	bāīs	Vingt deux	nombre 022
बाकी	bāqī	qui reste, en reste	adj.
बाकी	bāqī	reste, restant, solde, reliquat	n.f.
बाघ	bāgh	tigre	n.m.
बाजरा	bājra	millet, sorgho	n.m.
बाज़ार	bāzār	marché	n.m.
बाद में	bād mẽ	après, ensuite	adv. tps.
बादल	bādal	nuage	n.m.
बादशाह	bādsāha	roi, souverain, roi pièce d'echec	n.m.
बानवे	bānave	quatre-vingt douze	nombre 092
बार बार	bār bār	maintes-fois, à plusieurs reprises	adv.
बारसात	barsāt	pluie, saison des pluies, mousson	n.f.
बारह	bārah	douze	nombre 012

बारात	bārāt	cortège de mariage	n.f.
बारिश	bāris	pluie, averse	n.f.
बारिश का मौसम	bāris kā mausam	saison des pluies (mousson)	n.m.
बाल	bāl	cheveu	n.m.
बालटी	bālṭī	seau	n.f.
बावन	bāvan	cinquante deux	nombre 052
बावर्ची	bāvarcī	cuisinier	n.m.
बासठ	bāsaṭh	soixante deux	nombre 062
बासी	bāsī	rassis, pas frais	adj.
बाहर	bāhar	à l'extérieur, dehors	adv.
बजिली	bijalī	éclair	n.f.
बजिलीकरण	bijlikaraṇ	électrification	n.m.
बद्धिमान	buddhimān	intelligent	adj.
बद्धिहीन	buddhihīn	idiot, imbécile, stupide, sot	adj.
बलिकुल	bilkul	complètement, tout à fait	adv.
बिल्ली	billī	chat	n.f.
बस्त्र	bistar	lit	n.m.
बीच	bīc	centre, milieu	n.m.
बीच बीच में	bīc bīc mẽ	en plein centre	adv.
बीमार	bīmār	malade, souffrant, indisposé	adj.
बीमार	bīmār	malade	n.m.
बीमारी	bīmārī	maladie, souffrance	n.f.
बीस	bīs	vingt	nombre 020
बीसवाँ	20 bīsivā	vingtième	nombre ord.
बुआ	buā	tante (sœur du père)	n.f.
बुखार	bukhār	fièvre, température	n.m.
बुखार होना (किसी को)	bukhār honā (kisī ko)	avoir de la fièvre	vb. int.

बुद्धी	buddhi	intelligence, intellect	n.f.
बुद्धू	buddhū	idiot, imbécile, stupide, sot	adj.
बुद्धू	buddhū	idiot, imbécile, stupide, sot	n.m.
बुधवार	(3) budhvār	mercredi (jour de Mercure)	n.m.
बुनकर	bunkar	tisserand	n.m.
बुरा	burā	mauvais, mal, méchant	adj.
बुराई	burāī	méchanceté, le mal, le vice	n.f.
बुलबुल	bulbul	rossignol	n.m.
बुलाना	bulānā	appeler, faire venir, inviter	vb. tr.
बुलाब	gulāb	rose	n.m.
बू	bū	odeur	n.f.
बूँदाबूँदी	būndābūndī	bruine, crachin	n.f.
बूटी	būṭī	aromate, herbe, plante médicinale	n.f.
बूढ़ा	būṛhā	vieux	adj.
बूढ़ा	būṛhā	vieux	n.m.
बूढ़ापन	būṛhāpan	vieillesse	n.m.
बूढ़ापा	būṛhāpā	vieillesse	n.m.
बूढ़ी	būṛhī	vieille	n.f.
बृहस्पतविवार	(4) brihaspativār	jeudi (jour de Jupiter)	n.m.
बेअंत	beanta	sans fin, interminable	adj.
बेअक्ल	beaqla	idiot, imbécile, stupide, sot	adj.
बेअक्ली	beaqlī	inintelligence, stupidité, idiotie	n.f.
बेईमान	beīmān	malhonnête	adj.
बेईमानी	beīmānī	malhonnêteté	n.f.
बेकसूर	beqasūr	innocent, non coupable	adj.
बेकार	bekār	sans travail, inutile, oisif	adj.
बेचारा	becārā	pauvre, sans appui	adj.

बेचैन	becain	agité, nerveux	adj.
बेटा	beṭā	fils	n.m.
बेटी	beṭī	filles (la fille de ...)	n.f.
बैठाना	beṭhānā	faire asseoir	vb. tr.
बेनाम	benām	anonyme	adj.
बेफकिर	befikra	insouciant, indifférent	adj.
बेमतलब	bematlab	inutile, infructueux, hors de propos	adj.
बेर	ber	jujube	n.m.
बेलचा	belcā	pelle	n.m.
बेवकूफ	bevakūf	idiot, imbécile, stupide, sot	adj.
बेवकूफी	bevakūfī	inintelligence, stupidité, idiotie	n.f.
बेवजह	bevajaha	sans raison	adv.
बेसबर	besabar	impatience	adj.
बेहद	behad	illimité, excessif, beaucoup	adj.
बैंगन	baiṅgan	aubergine	n.m.
बैंगनी	baiṅganī	violet	adj.
बैटना	baiṭhnā	s'asseoir, être assis	vb. int.
बैठाना	baiṭhānā	faire asseoir	vb. tr.
बोरिया-बसिटर	boriyā-bistar	effets personnels	n.m.
बोली	bolī	parole, dialecte, parler	n.f.
बौछार	bauchār	averse, rafale de pluie	n.f.
बौछार पड़ना	bauchār paṛnā	pleuvoir à torrents	vb. int.
ब्याह	byāha	mariage, cérémonie de mariage	n.m.
ब्राह्मण	brāhmaṇa	brahmane (caste des lettrés)	n.m.
भगवान	bhagvān	maître, Dieu, Seigneur	n.m.
भगाना	bhagānā	faire fuir	vb. tr.
भतीजा	bhatījā	neveu (fils du frère)	n.m.

भतीजी	bhatījī	nièce (fille du frère)	n.f.
भरता	bhartā	mets à base de pulpe de légumes	n.m.
भरा	bharā	plein, rempli	adj.
भराव	bharāv	remplissage, emplissage	n.m.
भरोसा	bharosā	confiance, foi	n.m.
भला	bhalā	gentil, bon, bien	adj.
भलाई	bhalāī	gentillesse, bonté	n.f.
भाई	bhāī	frère	n.m.
भागना	bhāgnā	courir, s'enfuir, s'échapper	vb. int.
भानजा	bhānjā	neveu (fils de la soeur)	n.m.
भानजी	bhānjī	nièce (fille de la soeur)	n.f.
भाभी	bhābhī	belle-soeur	n.f.
भारत	bhārat	Inde (terme sanscritisé)	n.m.
भारतीय	bhāratīy	indien	adj.
भारतीय	bhāratīy	indien (habitant l'Inde)	n.m.
भारी	bhārī	lourd, massif, pesant	adj.
भालू	bhālū	ours	n.m.
भाव	bhāva	existence, être, émotion, idée	n.m.
भावना	bhāvanā	conception, pensée, émotion, désir	n.f.
भगिना	bhigonā	tremper, mouiller, imbiber	vb. tr.
भी	bhī	aussi	conj.
भीगना	bhīgnā	être mouillé, trempé, imbibé	vb. int.
भुनना	bhunnā	être grillé	vb. int.
भुलक्कड़	bhulakkaṛ	oublieux, sans mémoire	adj.
भुलाना	bhulānā	faire oublier, induire en erreur	vb. tr.
भू	bhū	sol, terre, monde	n.f.
भूख	bhūkh	faim	n.f.

भूख लगना (किसी को)	bhūkh lagnā (kisī ko)	avoir faim	vb. int.
भूखा	bhūkhā	affamé	adj.
भूनना	bhūnnā	griller, frire, rôtir	vb. tr.
भूमि	bhūmi	la terre, le monde, sol, surface	n.f.
भूरा	bhūrā	marron	adj.
भूल	bhūl	oubli, omission, erreur, faute	n.f.
भूलना	bhūlnā	oublier, se tromper	vb. int.
भेजना	bhejnā	envoyer, expédier	vb. tr.
भेड़	bher	mouton	n.f.
भेड़िया	bheriyā	loup	n.m.
भैंस	bhains	bufflesse (bufflonne)	n.f.
भैंसा	bhainsā	buffle	n.m.
भोंपू	bhompū	avertisseur, claxon, sirène	n.m.
भोजन	bhojan	nourriture, vivres, repas	n.m.
भोला	bholā	innocent, candide, ingénu	adj.
भोलापन	bholāpan	innocence, simplicité d'esprit	n.m.
भौ	bhaū	sourcil	n.f.
मंगलवार	(2) māṅgalvār	mardi (jour favorable, jour de Mars)	n.m.
मंज़िल	mañzil	étape, bivouac, camp, destination	n.f.
मंजूर करना	mañzūr karnā	accepter, approuver	vb. tr.
मंजूर होना (किसी को)	mañzūr honā (kisī ko)	accepter, approuver	vb. int.
मंजूरी	mañzūrī	acceptation, approbation	n.f.
मंडप	maṅḍap	abri, tente, dais, chapiteau	n.m.
मंत्रालय	mantrālaya	ministère	n.m.
मन्त्री	mantrī	ministre, conseiller, secrétaire	n.m.
मंदिर	mandir	temple, maison	n.m.
मकड़ी	makṛī	araignée	n.f.

मकान	makān	maison, résidence, demeure	n.m.
मक्का	makkā	maïs	n.m.
मक्खन	makkhan	beurre	n.m.
मक्खी	makkhī	mouche	n.f.
मगर	magar	mais	conj. coord.
मगरमच्छ	magarmaccha	crocodile	n.m.
मचना	macnā	avoir lieu	vb. int.
मचलना	macalnā	être capricieux	vb. int.
मच्छर	macchar	moustique	n.m.
मच्छरदानी	macchardānī	moustiquaire	n.f.
मछली	machlī	poisson	n.f.
मछुआ	machuā	pêcheur	n.m.
मज़दूर	mazdūr	ouvrier, travailleur	n.m.
मजबूर	majbūr	contraint, oppressé, faible	adj.
मजबूर करना (किसी को)	majbūr karnā (kisī ko)	contraindre, forcer quelqu'un	expr. verb.
मज़ा	mazā	plaisir, goût, amusement	n.m.
मज़ाक उड़ाना (किसी का)	mazāq uṛānā (kisī ka)	se moquer de, ridiculiser	vb. tr.
मज़ाक करना	mazāq karnā	plaisanter	vb. tr.
मज़ाक में	mazāq mẽ	en plaisantant, pour rire	loc.
मज़ेदार	mazedār	agréable, plaisant, amusant	adj.
मटर	maṭar	petits pois	n.f.
मतलब	matlab	signification, motif, intérêt	n.m.
मर्ती	mati	intelligence, intellect	n.f.
मर्ती	mati	intelligence, opinion, point de vue	n.f.
मतमिान	matimān	intelligent	adj.
मन पसंद	man-pasand	favori, plaisant	adj.
मनहूस	manhūs	de mauvais augure, malchanceux	adj.

मनाना	manānā	persuader, convaincre	vb. tr.
मनुष्य	manuṣya	homme, être humain	n.m.
ममेरी बहन	mamerī bahan	cousine (fille du frère de la mère)	n.f.
मर्द (मरद)	mard (marad)	homme, mari	n.m.
मल	mal	saleté, souillure, ordure, excrément	n.m.
मशहूर	maśhūr	renommé, réputé, connu	adj.
मसकराना	maskarānā	sourire	vb. int.
मसाला	masālā	épice, mélange d'épices	n.m.
मसालेदार	masāledār	épicé	adj.
महँगा	mahāṅgā	cher, couteux	adj.
महत्त्व	mahattva	importance, grandeur	n.m.
महत्त्वपूर्ण	mahattvapūrṇa	important	adj.
महल	mahal	palais	n.m.
महसूस	mahasūs	ressenti, éprouvé	adj.
महसूस होना (किसी को)	mahasūs honā (kisī ko)	ressentir, éprouver	vb. tr.
महान	mahān	très grand, énorme, éminent	adj.
महिला	mahilā	femme, dame	n.f.
महीना	mahīnā	mois	n.m.
महौल	māhaul	ambiance	n.m.
माँ	mā	mère (familier)	n.f.
माँस	mās	viande	n.m.
मांसाहारी	māsāhārī	non-végétarien	adj.
मांसाहारी	māsāhārī	non-végétarien	n.m.
माता	mātā	mère	n.f.
माथा	māthā	front	n.m.
मानना	mānā	approuver, consentir	vb. int.
मानसून	mānsūn	mousson	n.m.

माप	māp	mesure, quantité, volume	n.f.
माफ़ करना	māf karnā	pardonner, excuser	vb. tr.
मामा	māmā	oncle (frère de la mère)	n.m.
मामी	māmī	tante (épouse du frère de la mère)	n.f.
मार पीट	mār-pīṭ	passage à tabac	n.f.
माल	māl	marchandise, richesse	n.m.
मालिक	mālik	maître, propriétaire	n.m.
मालनि	mālin	jardinière	n.f.
माली	mālī	jardinier	n.m.
मालूम	mālūm	connu, évident	adj.
मालूम होना (किसी को)	mālūm honā (kisī ko)	être connu, savoir	vb. int.
मज़ाज	mizāj	nature, tempérament, caractère	n.m.
मट्टी	miṭṭī	terre, poussière, dépouille mortelle	n.f.
मनिट	minaṭ	minute	n.m.
मनिस्टर	minisṭar	ministre	n.m.
मर्याँ	miyā	maître, mari, titre de respect musul.	n.m.
मरिच	mirc	piment	n.f.
मलिन	milan	rencontre, réunion, réconciliation	n.m.
मलिना (किसी से)	milnā (kisī se)	rencontrer (quelqu'un)	vb. int.
मलिना (किसी को x)	milnā (kisī ko x)	trouver x	vb. int.
मलिवाना	milvānā	faire rencontrer, présenter	vb. tr.
मलिवाना (x को Y से)	milvānā (X ko Y se)	présenter, faire rencontrer Y à X	expr. verb.
मलाना	milānā	mélanger, faire rencontrer	vb. tr.
मलाप	milāp	rencontre, réunion, union	n.m.
मलावट	milāvaṭ	mélange, adultération, alliage	n.f.
मीठा	mīṭhā	sucré, doux	adj.
मुँह	mūha	bouche, visage, ouverture, figure	n.m.

मुँह में पानी आना	mūha mẽ pānī ānā	saliver, avoir l'eau à la bouche	expr. verb.
मुँह में लार आना	mūha mẽ lār ānā	saliver, avoir l'eau à la bouche	expr. verb.
मुख़ालफ़ि	mukhālif	contraire, opposé, hostile	adj.
मुख़ालफ़ि	mukhālif	ennemi, oposant	n.m.
मुख़ालफ़ित	mukhālifat	opposition, antagonisme	n.f.
मुड़ना	muṛnā	se plier, se tordre, se tourner	vb. int.
मुनाफ़ा	munāfā	profit, gain, bénéfice	n.m.
मुबारक	mubārak	de bon augure	adj.
मुमकनि	mumkin	possible, faisable	adj.
मुरगा	murgā	coq, poulet	n.m.
मुलाक़ात	mulāqāt	rencontre, entrevue	n.f.
मुल्क	mulka	pays, état, région	n.m.
मुश्कलि	muškil	difficile, ardu, dur	adj.
मुश्कलि	muškil	difficulté, complexité, peine	n.f.
मुसकान	muskān	sourire	n.f.
मुसकुराना	muskurānā	sourire	vb. int.
मुसाफ़रि	musāfir	voyageur	n.m.
मुस्कुराहट	muskurāhaṭ	sourire	n.f.
मुँछ	mūch	moustache	n.f.
मूंगफ़ली	mūgphalī	cacahuète	n.f.
मूर्ख	mūrkhā	ignorant, bête, imbécile...	adj.
मूर्ख	mūrkh	idiot, imbécile, stupide, sot	adj.
मूर्ख	mūrkh	idiot, imbécile, stupide, sot	n.m.
मूर्खता	mūrkhṭā	inintelligence, stupidité, idiotie	n.f.
मूली	mūlī	radis	n.m.
मूल्य	mūlya	prix, valeur, coût	n.m.
मृग	mṛiga	daim, gazelle	n.m.

मृत्यु	mrityu	mort	n.f.
में	mē	dans, à l'intérieur de	post pos.
मेंढक	meṇḍhak	crapaud (grenouille ?)	n.m.
मेज़	mez	table	n.f.
मेज़पोश	mezpoś	nappe	n.m.
मेथी	methī	fenugrec (graine de)	n.f.
मेरा	merā	mon	adj. pos
मेरा	merā	le mien	pron. pos
मेहमान	mehamān	invité	n.m.
मेहरबानी करके	meharbānī karke	s'il vous plait, je vous prie de	adv.
मैं	maī	je (toujours singulier)	pron. pers.
मैना	mainā	mainate	n.f.
मोची	moḱī	cordonnier	n.m.
मोटा	moṭā	gros, épais	adj.
मोड़	moṛ	courbe, tournant, virage	n.m.
मोड़ना	moṛnā	tourner, courber, plier	vb. tr.
मोढ़ा	moṛhā	tabouret	n.m.
मोर	mor	paon	n.m.
मोहरा	moharā	pion (echec), 1ère ligne (armée), goulot	n.m.
मौका	mauqā	occasion, chance, opportunité	n.m.
मौका पर	mauqā par	au bon moment	adv. tps
मौत	maut	mort	n.f.
मौसम	mausam	saison, temps (météo)	n.m.
मौसम पूर्वानुमान	mausam pūrvānumān	prévision météorologique	n.m.
मौसम वार्ता	mausam vārtā	bulletin météo	n.m.
मौसम विज्ञान	mausam-vijñān	météorologie	n.m.
मौसा	mausā	oncle (mari de la sœur de la mère)	n.m.

मौसी	mausī	tante (sœur de la mère)	n.f.
यकीन	yaqīn	confiance, foi	n.m.
यह	yaha (ye)	celui-ci, celle-ci	pron. dem.
यहाँ	yahā	ici	adv. lieu
यहाँ तक	yahā tak	jusqu'ici	loc. adv
यहाँ से	yahā se	depuis ici, d'ici	loc. adv
या	yā	ou, ou bien	conj. coord.
यात्रा	yātrā	voyage, pèlerinage	n.f.
याद	yād	souvenir, mémoire	n.f.
याद करना	yād karnā	se souvenir (volontairement)	vb. int.
याद रखना	yād rakhnā	se souvenir (volontairement)	vb. int.
याद रहना	yād rahnā	se souvenir, garder en mémoire	vb. int.
याद होना (को)	yād honā	se souvenir	vb. int.
युवक	yuvak	jeune homme	n.m.
युवता	yuvtā	jeunesse	n.f.
युवती	yuvatī	jeune (uniquement fem.)	adj.
युवा	yuvā	jeune (uniquement masc.)	adj.
युवापन	yuvāpan	jeunesse	n.m.
युवावस्था	yuvāvasthā	jeunesse	n.f.
योग्य	yogya	digne, compétent, qualifié, capable	adj.
योग्यता	yogyatā	compétence, capacité, habileté	n.f.
रंगरेज़	raṅgarez	teinturier	n.m.
रंगसाज़	raṅgasāz	peintre, fabriquant de couleurs	n.m.
रईस	raīs	riche, noble, opulent	adj.
रईस	raīs	homme riche, noble	n.m.
रखना	rakhnā	mettre, garder, conserver, posséder	vb. tr.
रगड़ना	ragaṛnā	frotter, frictionner, étriller, piler, harceler	vb. tr.

रणनीर्ती	raṇanīti	stratégie	n.f.
रविवार	(7) ravivār	dimanche (jour du Soleil)	n.m.
रसोई	rasoī	cuisine	n.f.
रसोईघर	rasoīghar	cuisine	n.m.
रस्म	rasma	cérémonie, coutume, usage	n.f.
रहना	rahanā	demeurer, habiter, vivre, rester	vb. int.
राख	rākh	cendre	n.f.
राग	rāg	couleur, teinture, mode mus.	n.m.
राज	rāj	royaume, empire, état, régime	n.m.
राजकीय	rājkiya	gouvernemental, officiel, étatique	adj.
राजगीर	rājgīr	maçon	n.m.
राजतंत्र	rājtantra	monarchie	n.m.
राजदूत	rājdūt	ambassadeur	n.m.
राजदूतावास	rājdūtāvās	ambassade	n.m.
राजधानी	rājdhānī	capitale	n.f.
राजनीर्ती	rājnīti	politique	n.f.
राजनैतिक	rājnaitik	politique	adj.
राजव्यवस्था	rājvyavasthā	régime, forme de gouvernement	n.f.
राजा	rājā	roi, monarque, maître	n.m.
राज्य	rājya	royaume, état, régime	n.m.
राज्यसभा	rājyasabhā	chambre haute du parlement	n.f.
रात	rāt	nuit	n.f.
रात्री	rātrī	nuit	n.f.
रानी	rānī	reine	n.f.
राष्ट्र	rāṣṭra	état, pays, nation, peuple	n.m.
रिवाज	rivāj	coutume, tradition, pratique	n.m.
रीर्ती	rīti	coutume, tradition, pratique	n.f.

रुक जाना	ruk jānā	s'arrêter	vb. int.
रुकना	ruk nā	s'arrêter, s'interrompre, rester	vb. int.
रुकावट	rukāvaṭ	obstacle, empêchement	n.f.
रुचि	ru ci	intérêt	n.f.
रुलवाना	rulvānā	faire faire pleurer qqun.	vb. tr.
रुलाना	rulānā	faire pleurer qqun.	vb. tr.
रूसी	rūsī	russe	adj.
रूसी	rūsī	le russe (la langue)	n.f.
रूसी	rūsī	russe (habitant la Russie)	n.m.
रेशमी	reśmī	en soie, de soie	adj.
रोक देना	rok denā	arrêter, empêcher d'avancer, interdire	vb. tr.
रोकना	roknā	arrêter, empêcher d'avancer, interdire	vb. tr.
रोग	rog	maladie, mal	n.m.
रोगी	rogī	malade, souffrant	adj.
रोगी	rogī	malade, patient	n.m.
रोना	ronā	pleurer, se lamenter	vb. int.
रोम	rom	poil, duvet, orifice	n.m.
रोम रोम से	rom rom se	de tout son être	adv.
रोमकारी	romkāri	saisissant, terrifiant	adj.
रोयाँ (रोआँ)	royā (roā)	poil	n.m.
रोयाँ खड़ा होना	royā khaṛā honā	avoir la chaire de poule	vb. int.
रोयेंदार	royendār	poilu, velu, hirsute	adj.
लंबा	lambā	long, étendu, haut, grand	adj.
लकड़ी	lakṛī	bois, bâton	n.f.
लगना	lagnā	être appliqué, posé, sembler	vb. int.
लगाना	lagānā	accrocher, appliquer, installer	vb. tr.
लटकना	laṭaknā	être pendu, suspendu,	vb. int.

लटकाना	laṭkānā	pendre, suspendre, retarder	vb. tr.
लड़का	laṛkā	garçon	n.m.
लड़की	laṛkī	filie, jeune filie	n.f.
लड़ना	laṛnā	combattre, lutter, s'entrechoquer	vb. int.
लड़ाई	laṛāī	combat, dispute	n.f.
लड़ाका	laṛākā	querelleur, belliqueux	adj.
लड़ाना	laṛānā	faire battre, combattre, confronter	vb. tr.
लपकना	lapaknā	se précipiter, s'élancer	vb. int.
लहसुन	lahasun	ail	n.m.
लाख	lākh	cent mille	nombre 100000
लाना	lānā	apporter, amener	vb. tr.
लाभ	lābh	profit, gain, bénéfice, avantage	n.m.
लायक	lāyaq	convenable, digne de, capable	adj.
लार	lār	salive, bave	n.f.
लाल	lāl	rouge	adj.
लालच	lālac	avidité, convoitise	n.m.
लखिना	likhnā	écrire, rédiger, inscrire	vb. tr.
लखावट	likhāvaṭ	écriture, façon d'écrire	n.f.
लखिति	likhit	écrit	adj.
लिपि	lipi	écriture, système d'écriture	n.f.
लेकिन	lekin	mais, d'autre part,	conj. coord.
लेखक	lekhak	auteur, écrivain	n.m.
लेना	lenā (irrégulier)	prendre	vb. tr.
लोक संगीत	lok saṅgīt	musique folklorique	n.m.
लोग	log	gens, peuple	n.m.
लोटना	loṭnā	se rouler, se vautrer, se tordre	vb. int.
लोभ	lobh	convoitise, avidité, avarice	n.m.

लोमड़ी	lomṛī	renard	n.f.
लोहार	lohār	forgeron	n.m.
लौंग	lauṅg	girofle (clou de), giroflier	n.m.
लौटना	lauṭnā	rentrer, retourner, revenir	vb. int.
लौटाना	lauṭānā	renvoyer, retourner, rendre	vb. tr.
वकील	vakīl	avocat, émissaire	n.m.
वक्त	vaqta	temps, moment, heure, occasion	n.m.
वगैरह	vagairah	et cetera	adv.
वज़न	vazan	poids, valeur, importance	n.m.
वज़नदार	vazandār	lourd	adj.
वजह	vajaha	raison, cause	n.f.
वधू	vadhū	fiancée, mariée, épouse	n.f.
वर	var	jeune marié, don du ciel	n.m.
वर्ण	varṇa	couleur, teinture, caste, lettre (alphan.)	n.m.
वर्ष	varṣa	an, année	n.m.
वर्षा	varṣā	pluie, mousson	n.f.
वस्तु	vastu	chose, objet, article	n.f.
वह	vo	il, elle (singulier)	pron. pers.
वहाँ	vahā̃	là	adv. Lieu
वांछा	vāchā	désir, souhait	n.f.
वाकई	vāqaī	vraiment	adv.
वाद	vād	énonciation, débat, rumeur, procès	n.m.
वापस	vāpas	de retour, rentré, renvoyé	adj.
वापस आना	vāpas ānā	rentrer, être de retour	vb. int.
वार्षिक	vārṣik	annuel	adj.
वकिसति	viksit	développé	adj.
विकास	vikās	développement, croissance, évolution, progrès	n.m.

विकास करना	vikās karnā	développer	vb. tr.
वचार	vicār	pensée, réflexion, avis, opinion	n.m.
वचार करना	vicār karnā	penser	vb. tr.
वचारक	vicārak	penseur	n.m.
वचार-धारा	vicār-dhārā	courant de pensée, tendance, idéologie	n.f.
वचारना	vicārnā	penser, réfléchir, délibérer	vb. tr.
वचारी	vicārī	penseur	n.m.
वज्ज्ञान	vijñān	science	n.m.
वज्ज्ञानकि	vijñānik	scientifique	adj.
वदैश	videś	étranger (pays)	n.m.
वदैशी	videśī	de l'étranger	adj.
वदैशी	videśī	étranger	n.m.
वद्व्या	vidyā	connaissance	n.f.
वद्व्यार्थनी	vidyārthanī	étudiante, élève	n.f.
वद्व्यार्थी	vidyārthī	étudiant, élève	n.m.
वद्व्वान	vidvān	savant, érudit	n.m.
वधवा	vidhavā	veuve	n.f.
वधि	vidhi	méthode, manière, système, loi	n.f.
वधुर	vidhur	veuf	n.m.
वनाश	vināś	destruction, anéantissement, désastre	n.m.
वपिक्षी	vipakṣī	opposant, adversaire, ennemi	n.m.
वपिक्षी	vipakṣī	opposé, hostile	adj.
वपिरीत	viparīt	contraire, opposé, mensonger, faux	adj.
वयुक्त	viyukta	séparé, isolé	adj.
वरिद्ध	viruddha	contraire, opposé, hostile	adj.
वरोध	virodh	opposition, antagonisme	n.m.
वरोधी	virodhī	opposant, adversaire, antagoniste	n.m.

वलायत	vilāyat	pays, étranger (occident, G.B.)	n.f.
ववाह	vivāh	mariage	n.m.
ववाहति	vivāhit	marié	adj.
वशेष	viśeṣ	particulier, spécifique, caractéristique	adj.
वशेषता	viśeṣṭā	particularité, spécificité	n.f.
वश्व	viśva	monde, univers	n.m.
वश्ववद्वयालय	viśvavidyālaya	université	n.m.
वश्वस्त	viśvasta	digne de confiance, fiable	adj.
वश्ववास	viśvās	confiance, foi, assurance, croyance	n.m.
वश्ववास करना	viśvās karnā	croire	vb. tr.
वश्ववास दलाना (कसलसी को)	viśvās dilānā (kisī ko)	rassurer	vb. tr.
वश्ववास रखना (x पर)	viśvās rakhnā (X par)	faire confiance à X, croire en X	vb. tr.
वश्ववास होना (कसलसी को ँ पर)	viśvās honā (kisī ko X par)	avoir confiance, la foi en X	vb. int.
वश्ववासघात	viśvāsghāt	trahison, abus de confiance	n.m.
वश्ववासघात करना	viśvāsghāt karnā	trahir	vb. tr.
वीही	vīhī	coing	n.f.
वे	ve	ils, elles (pluriel)	pron. pers.
वैज्जानकि	vaijñānik	savant	n.m.
वैज्जानकि	vaijñānik	scientifique	adj.
वैश्य	vaiśya	caste des commerçants	n.m.
व्यकर्ता	vyakti	homme, individu, personne, sujet	n.m.
व्यवसाय	vyavasāya	profession, vocation, occupation	n.m.
व्यवस्था	vyavasthā	arrangement, organisation, système	n.f.
व्यवस्था करना (की)	vyavasthā karnā (kī)	arranger, organiser	vb. tr.
व्यवस्था होना	vyavasthā honā	être prévu, arrangé, organisé	vb. int.
व्यापारी	vyāpārī	commerçant	n.m.
शक	śak	doute, soupçon	n.m.

शक होना (किसी को)	śak honā (kisī ko)	avoir un doute	vb. int.
शकल	śakal	visage, traits, mine, aspect	n.f.
शक्कर	śakkar	sucre	n.f.
शक्कर कंद	śakkar kanda	patate douce	n.m.
शत-प्रतिशत	śat-pratiśat	cent pour cent	loc. adv.
शतरंज	śatrañja	jeu d'echec	n.f.
शनिवार	(6) śanivār	samedi (jour de Saturne)	n.m.
शब्द	śabda	mot, terme, son, parole	n.m.
शरमाना	śarmānā	éprouver de la honte, être intimidé	vb. int.
शरमन्दा	śarmindā	honteux, confus	adj.
शरमला	śarmilā	timide, pudique	adj.
शराब	śarāb	vin, alcool	n.m.
शराबी	śarābī	ivrogne	adj.
शराबी	śarābī	ivrogne	n.m.
शरपिफ	śarīf	courtois, bien élevé, aimable, bien	adj.
शरीर	śarīr	corps	n.m.
शर्म	śarm	honte, pudeur, timidité	n.m.
शर्म आना (किसी को)	śarm ānā (kisī ko)	éprouver de la honte, être intimidé	vb. int.
शर्म होना (किसी को)	śarm honā (kisī ko)	éprouver de la honte, être intimidé	vb. int.
शलगम	śalgam	navet	n.m.
शहर	śahar	ville	n.f.
शांत	śānta	paisible, silencieux, calme	adj.
शांती	śānti	paix, calme, silence	n.f.
शांतवाद	śāntivād	pacifisme	n.m.
शाकाहारी	śākāhārī	végétarien	adj.
शाकाहारी	śākāhārī	végétarien	n.m.
शादी	śādī	mariage	n.f.

शादीशुदा	śādīśudā	marié (inv.)	adj.
शाम	śām	soir, soirée	n.f.
शायद	śāyad	peut-être, probablement	adv.
शायर	śāyar	poète	n.m.
शायरी	śāyarī	poésie, composition poétique	n.f.
शास्त्र	śāstra	écritures religieuses, traités	n.m.
शिकायत	śikāyat	plainte, reproche, malaise	n.f.
शिकायत करना (□ से Y की)	śikāyat karnā (X se Y kī)	se plaindre de Y auprès de X	expr. verb.
शिकार	śikār	chasse, gibier, proie	n.m.
शिकार खेलना	śikār khelna	chasser	vb. tr.
शिकारी	śikārī	chasseur	n.m.
शिक्षक	śikṣak	éducateur, enseignant	n.m.
शिक्षा	śikṣā	enseignement, éducation	n.f.
शीघ्र	śīghra	immédiatement, rapidement, vite	adv.
शुक्रवार	(5) śukravār	vendredi (jour de Vénus)	n.m.
शुरू	śurū	début, commencement	n.m.
शुरू करना	śurū karnā	commencer, initier	vb. tr.
शुरू होना	śurū honā	être commencé, commencer	vb. int.
शूद्र	śūdra	caste la plus basse	n.m.
शून्य	śūnya	zéro	nombre 000
शेर	śer	vers (de poésie)	n.m.
शेर	śer	lion	n.m.
शैतानी	śaitānī	méchanceté, espièglerie	n.f.
शोध	śodh	purification, raffinage, correction	n.m.
शोर	śor	bruit, tumulte, tapage	n.m.
शौक	śauk	passion, goût	n.m.
शौक होना (किसी को...का)	śauk honā (kisī ko... Ka)	avoir la passion de ...	vb. tr.

श्री	śrī	monsieur (nom de Lakshmi)	n.f.
संकरा	saṅkrā	étroit, serré	adj.
संकल्प	saṅkalpa	détermination, résolution	n.m.
संकोच	saṅkoc	hésitation, timidité, réserve	n.m.
संगीत	saṅgīt	musique	n.m.
संग्राम	saṅgrām	guerre, bataille	n.m.
संतरा (संगतरा)	santrā (saṅtrā)	orange (fruit)	n.m.
संतुष्ट	santuṣṭa	content, satisfait	adj.
संदूक	sandūk	coffre, caisse, malle	n.m.
संदेश	sandēs	message, missive	n.m.
संपत्ती	sampatti	propriété, possession, richesse	n.f.
संबंध	sambandha	relation	n.m.
संभव	sambhava	possible, probable	adj.
संभवत	sambhavat	peut-être	adv.
संभावना	sambhāvanā	possibilité, probabilité	n.f.
संसद	sansad	parlement, société, assemblée	n.f.
संसार	sansār	monde, univers	n.m.
संस्था	sansthā	institution, organisation	n.f.
सख्त	sakhta	dur, rigide, solide, sévère	adj.
सख्ती	sakhtī	dureté, fermeté, austérité, rigueur	n.f.
सगाई	sagāī	relation, lien, fiançaille	n.f.
सचमुच	sacmuc	vraiment, réellement	adv.
सच्चाई	saccāī	vérité	n.f.
सजना	sajnā	être orné, se vêtir, se parer	vb. int.
सजना धजना	sajnā dhajnā	tirer à 4 épingles, maquiller, parer	vb. tr.
सजाना	sajānā	ornier, décorer, parer, équiper	vb. tr.
सजावट	sajāvaṭ	décoration, ornementation	n.f.

सट्टेबाज़ी	saṭṭebāzī	spéculation	n.f.
सड़क	saṛak	route, voie, chemin	n.f.
सड़सठ	saṛsaṭh	soixante sept	nombre 067
सतहत्तर	satahattar	soixante dixsept	nombre 077
सतासी	satāsī	quatre-vingt sept	nombre 087
सत्तर	sattar	soixante dix	nombre 070
सत्ताईस	sattāīs	vingt sept	nombre 027
सत्तानवे	satrānave	quatre-vingt dix-sept	nombre 097
सत्तावन	sattāvan	cinquante sept	nombre 057
सत्यानाश	satyānās	destruction totale	n.m.
सत्रह	satrah	dix-sept	nombre 017
सपना	sapnā	rêve, illusion	n.m.
सपना देखना	sapnā dekhnā	réver	vb. tr.
सप्तपदी	saptapadī	les sept pas autour du feu (mariage)	n.f.
सप्ताह	saptāha	semaine	n.m.
सप्ताहकि	saptāhik	hebdomadaire	adj.
सफर	safar	voyage	n.m.
सफेद	safed	blanc	adj.
सब	sab	tout, entier	adj.
सबर	sabar	patience, endurance	n.m.
सब्ज़ी	sabzī	légume	n.f.
सब्र	sabra	patience, endurance	n.m.
सभी	sabhī	tous	adj.
समझ	samajh	intelligence, compréhension	n.f.
समझदार	samajhdār	intelligent, compréhensif	adj.
समझना	samajhnā	comprendre	vb. tr.
समझाना	samjhānā	expliquer, faire comprendre	vb. tr.

समय	samay	temps, moment, époque	n.m.
समर्थक	samarthak	partisan, défenseur, tenant	n.m.
समर्थन	samarthan	soutien, défense, approbation	n.m.
समस्या	samasyā	problème, part. de compos. prosodique	n.f.
समाचार पत्र	samācār-patra	journal	n.m.
समाज	samāj	société, communauté	n.m.
समाजवाद	samājvād	socialisme	n.m.
समाजवादी	samājvādī	socialiste	n.m.
समाधान	samādhān	méditation, solution, méthode	n.f.
समाप्त	samāpta	fini, terminé, achevé	adj.
समाप्त करना	samāpta karnā	achever, terminer	vb. tr.
समाप्त होना	samāpta honā	être terminé	vb. int.
समाप्ती	samāpti	fin, conclusion	n.f.
समोसा	samosā	samosa	n.m.
सर	sar	tête	n.m.
सरकार	sarkār	gouvernement, administration	n.f.
सरकारी	sarkārī	gouvernemental, public	adj.
सर-दर्द	sar-darda	mal de tête, migraine	n.m.
सरदियों का मौसम	sardiyō kā mausam	saison froide (hiver)	n.m.
सरसों	sarsō	graine	n.f.
सरासर	sarāsar	entièrement, d'un bout à l'autre	adv.
सर्दी	sardī	hiver, froid	n.f.
सलहज	salahaj	belle-sœur (femme du frère de l'épouse)	n.f.
सलेटी	saletī	gris	adj.
सवा	savā (invariable)	un quart	adj.
सवाल	savāl	question, demande, problème	n.m.
सवेरा	saverā	matin, lever du jour	n.m.

ससता	sastā	bon marché, ordinaire	adj.
ससुर	sasur	beau-père (père du mari ou épouse)	n.m.
सहर	sahar	aube, lever du jour	n.f.
सहेली	sahelī	amie, femme	n.f.
साँड	sāṅ	taureau	n.m.
साक्षी	sākṣī	témoin	n.m.
साठ	sāṭh	soixante	nombre 060
साढू	sāṛhū	beau-frère (mari de la sœur de l'épouse)	n.m.
साढे	sāṛhe	demi	adj.
सात	sāt	sept	nombre 007
सातवाँ	07 sātvaṅ	septième	nombre ord.
साधारण	sādhāraṇ	commun, ordinaire, usuel, simple	adj.
साधारणीकरण	sādhāraṇīkaraṇ	généralisation	n.m.
साधू	sādhū	sadhu	n.m.
साफ़ा	sāfā	turban	n.m.
साबुत	sābut	entier, complet, intact	adj.
सामने	sāmne	devant, en face	adv.
सामाजिक	sāmājik	social	adj.
सामाजिक	sāmājik	membre d'une assemblée	n.m.
सारा	sārā	tout, entier	adj.
साल	sāl	an, année	n.m.
सालगरिह	sāl-giraha	anniversaire	n.f.
साला	sālā	beau-frère (frère de l'épouse)	n.m.
सालाना	sālānā	annuel	adj.
साली	sālī	belle sœur (sœur de l'épouse)	n.f.
सास	sās	belle-mère (mère du mari ou épouse)	n.f.
साहब	sāhab	monsieur, patron, maître	n.m.

साहस	sāhas	courage	n.m.
साहबिा	sāhibā	madame	n.f.
सहि	sinha	lion, sous-caste de kṣatriya	n.m.
सहिासन	sinhāsan	trône	n.m.
सखिना	sikhnā	étudier, apprendre	vb. tr.
सखिाना	sikhānā	enseigner, instruire	vb. int.
सदिधांत	siddhānta	principe, théorie, doctrine	n.m.
सदिधांती	siddhāntī	théorique, dogmatique	adj.
सरिर्फ	sirf	seulement, uniquement	adv.
सीटी	sīṭī	sifflet, coup de sifflet	n.f.
सीधा	sīdhā	droit, gentil, sage	adj.
सीमा	sīmā	frontière, limite	n.f.
सुअर	suar	porc, sanglier	n.m.
सुधार	sudhār	amélioration, réforme, modification	n.m.
सुधारक	sudhārak	réformateur	n.m.
सुधारना	sudhārnā	réformer, améliorer, modifier, corriger	vb. tr.
सुधारवाद	sudhārvād	réformisme	n.m.
सुधारवादी	sudhārvādī	réformiste	n.m.
सुधारवादी	sudhārvādī	réformiste	n.m.
सुनना	sunnā	entendre, écouter	vb. tr.
सुनवाना	sunvānā	faire réciter, faire raconter	vb. tr.
सुनहरा	sunharā	doré, d'or, brillant	adj.
सुनाई	sunāī	audition	n.f.
सुनाई देना (किसी को)	sunāī denā (kisī ko)	s'entendre, être audible (pas de erg.)	vb. tr.
सुनाना	sunānā	faire entendre, réciter, raconter	vb. tr.
सुनार	sunār	orfèvre, bijoutier	n.m.
सुन्दर	sundar	beau	adj.

सुन्दरता	sundartā	beauté	n.f.
सुबह	subah	matin, aurore	n.f.
सुलवाना	sulvānā	faire faire dormir	vb. tr.
सुलाना	sulānā	faire dormir	vb. tr.
सुहाना	suhānā	agréable, charmant, sympathique	adj.
सूखना	sūkhnā	sécher, évaporer, diminuer	vb. int.
सूखा	sūkhā	sec, desséché	adj.
सूखाना	sūkhānā	faire sécher	vb. tr.
सूचना	sūcnā	information, notice, annonce	n.f.
सूचति	sūcit	informé	adj.
सूरज	sūraj	soleil	n.m.
सूरत	sūrat	forme, apparence, visage	n.f.
से दूर	se dūr	loin de	post pos.
से पहले	se pahale	avant	post pos.
सेकना	seknā	rotir, griller, chauffer	vb. tr.
सेठ	seṭh	homme riche, riche commerçant	n.m.
सेब	seb	pomme	n.m.
सेहरा	seharā	décoration florale pour la tête du marié	n.m.
सैंतालीस	saintālīs	quarante sept	nombre 047
सैंतीस	saintīs	trente sept	nombre 037
सैद्धान्तिक	saiddhāntik	théorique	adj.
सैर	sair	promenade, excursion	n.f.
सोंठ	soṅṭh	gingembre séché	n.f.
सोने का कमरा	sone ka kamra	chambre à coucher	n.m.
सोफा	sofā	canapé	n.m.
सोमवार	(1) somvār	lundi (jour de la lune)	n.m.
सोलह	solah	seize	nombre 016

सौ	sau	cent	nombre 100
सौंप देना (सौंपना)	saump denā (saumpnā)	donner, confier	vb. tr.
सौंफ	saumf	anis	n.f.
सौतेली भाई	sautelā bhāī	demi-frère	n.m.
सौतेली माँ	sautelī mā	deuxième épouse	n.f.
सौदा	saudā	marchandise, provision	n.m.
सौदा करना	saudā karnā	négociier, marchander	vb. tr.
सौदागर	saudāgar	marchand	n.m.
सौदागरी	saudāgarī	commerce	n.f.
स्तब्ध	stabdha	stupéfait, étonné, surpris	adj.
स्त्री	strī	femme, épouse	n.f.
स्थल	sthal	sol, terre, endroit, site	n.m.
स्थान	sthān	endroit, espace, site	n.m.
स्थायी	sthāyī	stable, permanent, durable, régulier	adj.
स्थायी	sthāyī	refrain (mus.)	n.m.
स्थायीकरण	sthāyīkaraṇ	stabilisation, confirmation	n.m.
स्थिति	sthiti	position, situation, lieu, état	n.f.
स्थिर	sthir	ferme, stable, immobile, inflexible	adj.
स्वचालति	svacālit	automatique	adj.
स्वतंत्र	svatantra	libre, indépendant, autonome	adj.
स्वतंत्रता	svatantratā	liberté, indépendance, libération	n.f.
स्वदेश	svadeś	pays natal	n.m.
स्वदेशी	svadeśī	natif, autochtone, national, non importé	adj.
स्वभाव	svabhāva	nature, tempérament, disposition	n.m.
स्वयं	svayam	de soi-même	adv.
स्वराज	svarāj	indépendance, autonomie	n.m.
स्वर्ग	svarga	paradis	n.m.

स्वागत	svāgat	bienvenue, accueil	n.m.
स्वागत करना (किसी का)	svāgat karnā (kisī kā)	accueillir, souhaiter la bienvenue	vb. tr.
स्वाद	svād	goût, saveur	n.m.
स्वाद चखना (का)	svād cakhnā (kā)	goûter, essayer	vb. tr.
स्वाद चखाना (किसी को)	svād cakhānā (kisī ko)	se venger de, rendre la monnaie de sa pièce à	vb. tr.
स्वाद पड़ना (किसी को X का)	svād paṛnā (kisī ko X kā)	prendre goût à X, s'adonner à X	vb. int.
स्वाद लेना (का)	svād lenā (kā)	goûter, savourer, déguster	vb. tr.
स्वादष्ट	svādiṣṭa	savoureux, délicieux	adj.
स्वाधीन	svādhīn	indépendant, libre, sans entrave	adj.
स्वाधीनता	svādhīntā	indépendance	n.f.
स्वीकार	svīkār	acceptation, approbation	n.m.
स्वीकार करना	svīkār karnā	accepter, reconnaître, admettre	vb. tr.
स्वीकार होना (किसी को)	svīkār honā (kisī ko)	accepter, approuver	vb. int.
हँसना	hāsnā	rire, plaisanter	vb. int.
हँसाना	hāsānā	faire rire	vb. tr.
हँसी	hāsī	rire, plaisanterie	n.f.
हंगामा	haṅgāmā	tumulte, désordre, chahut	n.m.
हज़ार	hazār	mille	nombre 1000
हटाना	haṭānā	écarter, éloigner	vb. tr.
हड़ताल	haṭtāl	grève, interruption du travail	n.f.
हड्डी	haḍḍī	os	n.f.
हताश	hatās	désespéré	adj.
हताशा	hatāsā	désespoir, découragement, abattement	n.f.
हत्या	hatyā	meurtre, assassinat	n.f.
हत्यारा	hatyārā	meurtrier	n.m.
हथौड़ा	hathaurā	marteau	n.m.
हद	had	limite	n.f.

हफ्ता	haftā	semaine	n.m.
हम	ham	nous (parfois je) (pluriel)	pron. pers.
हमेशा	hameśā	toujours	adv. tps.
हर	har	chaque, chacun	adj.
हरा	harā	vert, frais	adj.
हल	hal	solution, calcul	n.m.
हलका	halkā	clair, pâle, léger, fin, moindre	adj.
हलवा	halvā	halva	n.m.
हल्दी	haldī	curcuma	n.f.
हवा	havā	vent	n.f.
हवा	havā	vent, air	n.f.
हवा करना	havā karnā	faire du vent, éventer, ventiler	vb. tr.
हवा का रुख	havā kā rukh	direction du vent	n.m.
हवा के घोड़े पर सवार होना	havā ke ghore par savār honā	être sur un nuage, au septième ciel	vb. int.
हवा खाना	havā khānā	prendre l'air, faire un tour	vb. tr.
हवा चलना	havā calnā	y avoir du vent	vb. int.
हवा पलटना	havā palatnā	tourner, changer (prp. & fig.)	vb. int.
हवा फरिना	havā phirnā	tourner, changer (prp. & fig.)	vb. int.
हवा बदलना	havā badalnā	tourner, changer (prp. & fig.)	vb. int.
हवा हो जाना	havā ho jānā	disparaître, filer, s'enfuir	vb. int.
हवाई	havāī	aérien	adj.
हवादार	havādār	aéré	adj.
हाँडी (हँडिया)	hāḍī (hāḍīyā)	marmite	n.f.
हाथ	hāth	main, avant-bras, poignée	n.m.
हाथी	hāthī	éléphant	n.m.
हाल	hāl	état, condition, situation	n.m.
हाल में	hāl mé	récemment	adv. tps.

हालत	hālat	condition, situation, état	n.f.
हालाँकी	hālāki	bien que, quoique	adv.
हदि	hind	Inde	n.m.
हदिस्तान	hindustān	Inde	n.m.
हदिस्तानी	hindustānī	indien	adj.
हदिस्तानी	hindustānī	hindousthani (la langue)	n.f.
हदिस्तानी	hindustānī	indien (habitant l'Inde)	n.m.
हदिू	hindū	hindou	adj.
हदिू	hindū	hindou (un)	n.m.
हसिा	himsā	violence, agressivité	n.f.
हति	hit	bienfaisance, gain, bénéfice, intérêt	n.m.
हतिकर	hitkar	bienfaiteur	n.m.
हतिकर	hitkar	utile	adj.
हतिकारी	hitkāri	bienfaiteur	n.m.
हतिकारी	hitkāri	bienfaiteur	adj.
हन्दिी	hindī	l'hindi (la langue)	n.f.
हमि	him	neige, glace	n.m.
हमिालय	himālaya	Himalaya	n.m.
हमिमत	himmat	courage	n.f.
हसिाब	hisāb	arithmétique, calcul, compte	n.m.
हसिाब जोडना	hisāb joṛnā	calculer	vb. tr.
हसिाब बंद करना	hisāb band karnā	clorre les comptes	vb. tr.
हसिाब रखना	hisāb rakhnā	tenir les comptes	vb. tr.
हींग	hīṅg	assafoetida	n.f.
हीरान	hairān	étonné, surpris, fatigué	adj.
हीरानी	hairānī	étonnement, surprise	n.f.
होंठ	hoṅṭh	lèvre	n.m.

होशियार

hośiyār

habile, intelligent, consciencieux

adj.